



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15—जनवरी 21, 2011 (पौष 25, 1932)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15—JANUARY 21, 2011 (PAUSA 25, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2011

(थल सेना विभाग)

सं. 742, दिनांक 10 दिसम्बर 2010—थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

ले कर्नल से कर्नल के पद पर

डीआर-10379एच राधाकृष्णन विजयनाथन, 11 फरवरी 2009 (दिनांक 16 मार्च 2007 से नेशनल सीनियरटी के साथ)

(दिनांक 27 जून 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)

मेजर से ले कर्नल के पद पर

डीआर-10379एच राधाकृष्णन विजयनाथन, 11 फरवरी 2002

(दिनांक 5 जनवरी 2002 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित

रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

केप्टन से मेजर के पद पर

डीआर-10379एच राधाकृष्णन विजयनाथन, 11 अगस्त 1994

(दिनांक 7 फरवरी 1998 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

लेफ्टि से केप्टन के पद पर

डीआर-10379एच राधाकृष्णन विजयनाथन, 11 अगस्त 1989

(दिनांक 7 फरवरी 1998 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

महेश चन्द्र

मेजर जनरल

एडीजीडीएस

सेना मुख्यालय

ई इन सी शाखा

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

सं. 743, दिनांक 10 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7 (8) के अंतर्गत 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक अथवा इनकी सेवा निवृत्ति अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, इस समय तक ग्रेड वेतन रु. 6,600/- वेतन बैंड-3 में स्थानापन्न उप निदेशक (ग्रुप ए राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

बी एस बरार

अंजन सिकंदर

घुरे सिंह

रंजन चक्रवर्ती

राम किशन

अमितव लोध

के गिरिधरन

हेमन्त कुमार हेम

बी सी बोश

के सुदीश कुमार

जनक धवन

एन डी पाउ

यह नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ आधार पर हैं तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

सक्षम प्राधिकारी सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7 (8) के अंतर्गत 01 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010 अथवा इनकी सेवा निवृत्ति अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, इस समय तक ग्रेड वेतन रु. 4,800/- वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न उप निदेशक अनुभाग अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

अकिल कैस

भीम सैन

जगू राम

अशोक कुमार राठौर

रमेश बाबू

सुरेश चंद बडोला

आर सी गोयल

ए के चाँदी

आई आर छावड़ा

कमलेश खन्ना

सावित्री बहल

एस के चटर्जी

राजेश कुमार सिंह

यह नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ आधार पर हैं तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

अनिल कुमरा लारोइया

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा.)

एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

प्रशासन निदेशालय (सिविल)

सं. 744, दिनांक 10 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7 (8) के अंतर्गत, उप निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतन पट्टी-3 (रु. 15,000--39,100/-) एवं ग्रेड पे रु. 6,600/- के रूप में 01 जनवरी 2010 से 30 जून 2010 तक या अधिकारी के सेवा निवृत्ति होने तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति को बढ़ाते हैं:--

अमित कुमार

बी पी शर्मा

बलवीर सिंह अरोड़ा

डी सी त्यागी

डी वी सिंह

डी एस अरोड़ा

के सी भरद्वाज

के डी मित्रा

के एम हेमलता

एम के झा

एम ए खान

संदीप कुमार

मान सिंह

मिलिंद होनवाड

पी एन एस यादव

पी पी तनेजा

प्रदीप कुमार

प्रमोद कुमार

आर के सहरावत

आर एम शुक्ला

एस हेमंत कुमार

सुधीर कुमार

यू एस लाटवाल

जगदीश सिंह 01 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2010

यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7 (8) के अंतर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी [वर्ग 'ख' (राजपत्रित)] के रूप में वतनमान पी बी-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं ग्रेड पे रु. 4,800/- में नियुक्त किया जाता है:--

प्रेम कुमार, 25 मई 2010 से 18 अक्टूबर 2010

स्नेह रानी सक्सेना, 25 मई 2010 से 18 अक्टूबर 2010

सावित्री पार्चा, 01 जुलाई 2010 से 18 अक्टूबर 2010

ए के पवार, 01 जुलाई 2010 से 18 अक्टूबर 2010

सुनिता मोंगिया, 04 अगस्त 2010 से 31 दिसम्बर 2010

महेश कुमार, 04 अगस्त 2010 से 31 दिसम्बर 2010

ओम वीर, 04 अगस्त 2010 से 31 दिसम्बर 2010

राज पाल सिंह, 04 अगस्त 2010 से 31 दिसम्बर 2010

यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती है।

ए के लारोइया
उप मु प्र अ (ए)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 745, दिनांक 13 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

आर वैकटेशन, वैज्ञानिक 'डी' को एसपीआईसी, दिल्ली में एक साल की परखावधि पर दिनांक 28 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 15,600--39,100/- व ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में।

नरसिंह साहु
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 746, दिनांक 13 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

डी आर डी एस नियम 1979 के उप नियम 8(क) के निबन्धनों के अनुसार हुई विभागीय परीक्षा 2007 में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) रु. 5,400/- ग्रेड पे--

पिन सं. नाम, स्थापना/प्रयोगशाला तथा नियुक्ति की तिथि

2008एबी1431 डी एच चीमुरकर, एसटीए 'बी', एचईएमआरएल, पूणे, 20 अक्टूबर 2008

2008एबी1453 विपिन कुमार सिंह, एसटीए 'बी', एचईएमआरएल, पूणे, 20 अक्टूबर 2008

2. दिनांक 30 जून 2009 के डीजीएन संख्या डीओपी/08/88038/डीजीएन/वै 'बी' में दर्शाये गये श्री डी एच चीमुरकर (क्रम संख्या 23) एवं श्री विपिन कुमार सिंह (क्रम सं. 25) से संबंधित प्रविष्टि हटायी गयी समझी जाये।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + रु. 5,400/- ग्रेड पे के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन सं., नाम, स्थापना/प्रयोगशाला तथा नियुक्ति की तिथि

2008एबी1004 सतीश कुमार दिव्या, एडीई, बेंगलूर, 21 मई 2008

2010एबी1167 गुरु प्रसाद, एडीआरडीई, आगरा, 19 मई 2010

2009एबी1672 रिद्धि भाटिया, एडीआरडीई, आगरा, 01 दिसम्बर 2009

2008एबी1037 के रामकांत रेड्डी, अनुसंधान, हैदराबाद, 21 मई 2008

2010एबी1110 राहुल पाल, एसएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1089 राजकिशोर दास, एसएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008एबी1101 गुरु सुधाकर जुतुर, एसएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2007एबी1333 रमेश वनम, एसएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

2010एबी1025 अपर्णा पी वी, केब्स, बेंगलूर, 19 मई 2010

2010एबी1075 अप्पु शंकर वी, केयर, बेंगलूर, 19 मई 2010

2008एबी1157 राम प्रभु टी, सिमिलेक, बेंगलूर, 03 जून 2009

2008एबी1061 आर शानमुगवेल, सिमिलेक, बेंगलूर, 21 मई 2008

2010एबी1141 प्रमोद कुमार वारानसी, सीवीआरडीई, चैन्नई, 19 मई 2010	2010एबी1097 अभिषेक अग्रवाल, आरसीआई, हैदराबाद, 19 मई 2010
2008एबी1200 रामबाबू डोड्ड, सीवीआरडीई, चैन्नई, 21 मई 2008	2008एबी1305 मधु सुदन राव टी, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008
2010एबी1088 मीनाक्षी दुर्गा, डील, देहरादून, 19 मई 2010	2008एबी1310 आर वी नवीन कुमार, आरसीआई, हैदराबाद, 22 मई 2008
2010एबी1147 एन लावण्या, डिबेल, बेंगलौर, 19 मई 2008	2007एबी1128 पी शिवनाथम, आरसीआई, हैदराबाद, 23 मई 2007
2008एबी1536 ओ एम योगेशभाई, डिपास, दिल्ली, 03 दिसम्बर 2008	2010एबी1043 सिद्धेश्वर कुमार, एसएसई, चण्डीगढ़, 19 मई 2010
2010एबी1072 राहुल श्रीवास्तव, डीएल, जोधपुर, 19 मई 2010	2010एबी1129 प्रभाकर राणा, एसएसई, मनाली, 19 मई 2010
2007एबी1299 महावीर सिंह, डी एल, जोधपुर, 14 नवम्बर 2007	2010एबी1023 घनश्याम मालवीय, एसएफसी, जगदलपुर, 19 मई 2010
2010एबी1106 शशितोष कुमार, डीएलआरएल, हैदराबाद, 19 मई 2010	2009एबी1686 चंदन कुमार, स्पीक, दिल्ली, 01 दिसम्बर 2009
2008एबी1297 वीवीएसआरएन राजू, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008	2007एबी1176 यशोदा परमार, एसएसपीएल, दिल्ली, 23 मई 2007
2008एबी1300 बी नरेश कुमार, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008	2009एबी1582 श्वेता गुप्ता, टीबीआरएल, चंडीगढ़, 01 दिसम्बर 2009
2010एबी1166 गंगा भवानी एस, जीटीआई, बेंगलौर, 19 मई 2010	2010एबी1080 पाटिल रवि एम, वीआईडीई, अहमदनगर, 19 मई 2010
2008एबी1211 नागेश बी के, जीटीआई, बेंगलौर, 21 मई 2008	
2008एबी1643 सतीश कुमार डी, जीटीआई, बेंगलौर, 24 सितम्बर 2008	वी पी पांडे सह-निदेशक (कार्मिक)
2008एबी1097 ललित मोहन, मु. एटीवीपी, दिल्ली, 21 मई 2008	
2010एबी1029 नेहा अग्रवाल, आईआईटी, देहरादून, 19 मई 2010	
2010एबी1028 शुभी सैनी, ईसा, दिल्ली, 19 मई 2010	
2008एबी1125 सीमा, ईसा, दिल्ली, 21 मई 2008	
2007एबी1222 मनोज कुमार मेहर, आईटीआर, बालासौर, 01 फरवरी 2007	
2010एबी1038 ओम प्रकाश, एलआईटी, बेंगलौर, 19 मई 2010	
2010एबी1085 श्री लक्ष्मी जी, एलआईटी, बेंगलौर, 19 मई 2010	
2010एबी1094 टी लता, एलआईटी, बेंगलौर, 19 मई 2010	
2010एबी1070 सोनु प्रेस सी, एलआईटी, बेंगलौर, 19 मई 2010	
2007एबी1038 राकेश कुमार, एलआईटी, बेंगलौर, 14 नवम्बर 2007	
2008एबी1172 देवराज वी, एलआईटी, बेंगलौर, 21 मई 2010	
2010एबी1093 अपर्णा ए, एनपीओएल, कोच्ची, 19 मई 2010	
2008एबी1214 विवेक ए के, एनपीओएल, कोच्ची, 21 मई 2008	
2008एबी1612 प्रवीण कुमार वी, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 03 दिसम्बर 2008	
	प्रारूप राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर
	सं. 747, दिनांक 13 दिसम्बर 2010--नीचे दिए गए कुलपतियों के राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:--
	कुलपति का नाम, निदेशालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तथा कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख
	डा. गोविन्द प्रसाद मिश्रा, कुलपति, एमपी एवं सीजी, न्यू वेतनरी विश्वविद्यालय, जबलपुर (एमपी), 23 नवम्बर 2009
	डा. एससी शर्मा, कुलपति, कर्नाटका एवं गोवा, तुम्कूर विश्वविद्यालय, तुम्कूर, 04 मई 2009
	प्रो. मोहम्मद इकबाल अली, कुलपति, ए पी, सतावाहना विश्वविद्यालय, करीमनगर, 28 जुलाई 2008
	डा. नवीन माथुर, कुलपति, राजस्थान, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, 28 नवम्बर 2009
	डा. ए जयाकृष्णन, कुलपति, के एवं एल, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, केरला, 15 दिसम्बर 2008

के मीना, कुलपति, टीएनपी एवं ए एन, भारतीदासन् विश्वविद्यालय, त्रिच्चि, तमिलनाडु, 16 जुलाई 2010

टीसी शिवशंकर मूर्ति, कुलपति, कर्नाटका एवं गोवा, मंगलूर विश्वविद्यालय, मंगलगांगोत्री, कर्नाटका, 03 मार्च 2010

जग वर्मा
ब्रिगे

उप महानिदेशक (एमएस)

सं. 748, दिनांक 14 दिसम्बर 2010--माननीय राष्ट्रपति, महोदय नीचे वर्णित अफसरों की सेवा को स्थाई कर उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा:--

भारतीय वायुसेना

फ्लाईंग (पायलट) शाखा

फ्ला अफसर अंकित सूद (29873), मयंक पंवार (29874), समीर अबरोल (29875), मरीष कुमार चाहल (29876), पी श्याम कुमार (29877), परविन्दर सिंह (29878), समीर मधवाल (29879), रोहन अतुल अन्ने (29880), लग्नजीत नायक (29881), मनीष जोशी (29882), अनिकेत कुमार (29883), गौरव पठनिया (29884), साहिल कपूर (29885), जॉन इपेन (29886), निर्मल कुमार (29887), उमेश बहादुर सिंह (29888), कुणाल कालरा (29889), जिग्मेत नोर्बू (29890), रूपेश कुमार शर्मा (29891), रोहण चाको जेकब (29892), अखिल भारद्वाज (29893), विकास कुमार (29894), अरुमुगनाथन पिचिपू राजा (29895), आदित्या साई कुमार मोठे (29896), गोपी कृष्ण (29897), प्रणीत कुमार वासी रेड्डी (29898), दीपक धनखर (29899), रजनीश चन्द्र उनियाल (29900), संदीप भास्कर (29901), एस शक्ति विघ्नेश्वर (29902), अतुल सूरी (29903), अश्विन प्रसाद (29904), अनुभव न्यारा (29905), अर्पित शुक्ला (29906), अनुभव महेन्द्र (29907), अर्जुन के पटेल (29908), विश्वनाथन नागा सुब्रमण्यम (29909), अंकुश तोमर (29910), रिजुल शर्मा (29911), अनुज गुप्ता (29912), सी कार्तिकेय राव (29913), मोहित गुप्ता (29914), सागिनत पटनायक (29915), सागर शर्मा (29916), रोहित कुमार चौहान (29918), तिग्गांशु डोगरा (29919), केशव कुमार (29920), एम जयकृष्णन (29921), रवीश कुमार (29923), अभिजीत सिंह (29924), रोहण किशोर कुलकर्णी (29925), अश्विनी कुमार (29926), राहुल नैनवाल (29927), राजेन्द्र कुमार गोदरा (29928), हिम्मतदल सिंह भराज (29929), हिमाद्री विश्वास (29930), निशांत राय (29931), विराट भोला (29932), पवन कुमार शर्मा (29934), सौरभ (29935), संजय वर्मा (29936), विवेक मोहन (29937), योगेश कुमार (29938), बियांग सिंह लैशगम (29939), कपिल देव (29940), निशित मिश्रा (29941), प्रद्यु जकारिया पोटेन (29942), आश्रय नेगी (29943), आमर हैदर नक्वी (29944), आशुतोष खंडुरी (29945), मोहित ओला (29947), कुमार सौरभ विशाल (29948), परीक्षित नंदलाल जोशी (29949), अमित गौड़ (29951), विजयपाल रावत (29952), संजीव तुलसीराम बड़गुजर (29953), उज्जवल कुमार

मिश्रा (29955), दीपांकर दास (29957), रक्षित मदान (29958), मेहताब सौद (29959), आशिष रावत (29961)-- 21 जून 2008 से प्रभावी।

वी एम मार्टीकर
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(डी)

सेना सचिव शाखा

सं. 749, दिनांक 14 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियों करती हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आईसी, रैंक, नाम, आर्म तथा मेजर जनरल के मूल रैंक में प्रभावी तिथि

(आईसी-31167) ब्रिगे बी चक्रवर्ती, एएडी, 24 जुलाई 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।

(आईसी-39812) ब्रिगे गिरिश कुमार, इंजीनियर, 08 सितम्बर 2009

(आईसी-39845) ब्रिगे ए के सिन्हा, इंजीनियर, 01 सितम्बर 2009

(आईसी-40285) ब्रिगे आर एन ठाकुर, इंजीनियर, 01 सितम्बर 2009

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

(एसएल-03152) कर्नल सुखविंदर सिंह, एसएल (आरओ), 01 अक्टूबर 2009

आर बी अस्थाना
निदेशक/एमएस (एक्स)

थल सेना विभाग

सं. 750, दिनांक 14 दिसम्बर 2010--थल सेना अनुदेश 37/38 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कर्नल से ब्रिगे के पद पर

एस के राय (डीआर-10369वाई), 26 फरवरी 2010 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 06 फरवरी 2010 से दी जाती है, जोकि वेतन और भत्तों पर प्रभावी नहीं होगी)

ए के पाल (डीआर-10360के), 08 फरवरी 2010

एन के साहू (डीआर-10339एफ), 19 मार्च 2010

एन के सिंगला (डीआर-10376पी), 26 अप्रैल 2010 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 21 मार्च 2010 से दी जाती है, जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

महेश चन्द्र

मेजर जनरल

एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 751, दिनांक 15 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म व सब्सटेंटिव तिथि

(आईसी-41308एच) के वी रामाना, आर्टी, 18 जून 2009

(आईसी-41386ए) नरेन्द्र कुमार, इंफैन्ट्री, 18 जून 2009

(आईसी-41897के) वाई के चहर, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41901एफ) के एन प्रसाद, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-41917एम) कंवलजीत सिंह, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41922एक्स) अर्जुन सिंह, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-41938एच) सुरेश चांद, एससी, 09 जून 2010

(आईसी-41941एच) एस के शर्मा, सिग्नल्स, 09 जून 2010

(आईसी-41992डब्ल्यू) आर पी एस गिल, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-42066एक्स) डी सी शर्मा, इंट, 09 जून 2010

(आईसी-42069एल) सतबीर सिंह, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42073एन) भूपेन्द्र सिंह, इंट, 09 जून 2010

(आईसी-42077के) एल कुशवाहा, एएडी, 09 जून 2010

(आईसी-42078एम) ए के माथुर, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42084ए) एम सी कुमार, सिग्नल्स, 09 जून 2010

(आईसी-42096पी) एल एस मथारू, एससी, 09 जून 2010

(आईसी-42119एल) आर मजुमदार, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42121एच) नौनिहाल सिंह, एओसी, 09 जून 2010

(आईसी-42135एच) एल के तिवारी, इंट, 09 जून 2010

(आईसी-42154एन) राजेश खोसला, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-42159एम) ए के चौहान, एसी, 09 जून 2010

(आईसी-42177पी) एम के शर्मा, सिग्नल्स, 09 जून 2010

(आईसी-42184एल) रघुवीर सिंह, एएडी, 09 जून 2010

(आईसी-42197एच) राजेन्द्र सिंह, एसी, 09 जून 2010

(आईसी-42198एल) ए के पांडे, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-42208के) धरमवीर सिंह, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42209एम) वाई पी एस गिरीवाल, एसी, 09 जून 2010

(आईसी-42234एल) आलोक पांडे, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42262एक्स) एस के मिश्रा, एईसी, 09 जून 2010

(आईसी-42265एल) पी के सक्सेना, एईसी, 09 जून 2010

(आईसी-44007के) ए एस राव, ईएमई, 14 जून 2010

(आईसी-41627पी) वेज सिंह, इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41981के) पी बी चौधरी, आर्टी, 09 जून 2009

(एसएल-3099एम) पी एस शेखावत, एसएलएम, 20 जुलाई 2010

(एसएल-3308वाई) पी सी वशिष्ठ, एसएलआईसी, 20 जुलाई 2010

(आईसी-41953एक्स) एल एस सिंह, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41954ए) ललित बेलवाल, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-42061वाई) बी के दास, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42164एक्स) जे के चैत्री, इंफैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42193एम) राजीव डी नायर, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-42267डब्ल्यू) एम सी जोशी, एईसी, 09 जून 2010

(आईसी-45180ए) वी मोहन, जैग डिपो, 25 अप्रैल 2010

(आईसी-45266वाई) संजोय सेन, आर्टी, 25 अप्रैल 2010

(एसएल-03164एफ) जे पी यादव, एसएल (आरओ), 20 जुलाई 2010

(एसएल-03307डब्ल्यू) वेणुगोपालन नायर पी, एसएल (आईसी), 20 जुलाई 2010

(आईसी-40267एक्स) वी के परदेशी, इंजीनियर्स, 23 दिसम्बर 2005

मेजर से ले कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

(आईसी-32371डब्ल्यू) कुलदीप सिंह, इंफैन्ट्री, 03 नवम्बर 1992

टी के दास

उप निदेशक

एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 752, दिनांक 15 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-58937) सतीश कुमार, ईएमई

(आईसी-58938) विकास पांडे, ईएमई

(आईसी-58939) सुनील यादव, एएडी

(आईसी-58940) सचिन कालिया, ईएमई

(आईसी-58942) उमेश कुमार मेहता, ईएमई

(आईसी-58943) पादीर विवेक शंकरराव, इंजीनियर्स

(आईसी-58944) हरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-58945) गवहाने सचिन सूर्यकांत, इंजीनियर्स

(आईसी-58946) राजीव कुमार बक्शी, इंजीनियर्स

(आईसी-58948) चरणजीत सिंह, ईएमई

(आईसी-58949) शशी कुमार नायर, ईएमई

(आईसी-58950) संजीव कुमार, ईएमई

(आईसी-58951) विक्रम महाजन, ईएमई

(आईसी-58952) मंयक गोयल, ईएमई

(आईसी-58953) मनिन्दर सिंह गिल, सिग्नल्स

(आईसी-58955) सौरभ दुबे, सिग्नल्स

(आईसी-58956) सुनील शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-58957) अरूण कुमार, सिग्नल्स

(आईसी-58958) मिरांडा प्रभाकर ब्रयान, इंजीनियर्स

(आईसी-58959) संतोष प्रसाद, सिग्नल्स

(आईसी-58960) परमिन्दर सिंह बाल, इंजीनियर्स

(आईसी-58961) रविन्द्र प्रताप सिंह, ईएमई

(आईसी-58962) गुरविन्दर सिंह गिल, इंजीनियर्स

(आईसी-58963) आर सहायराज, ईएमई

(आईसी-58964) गोपेन्द्र, सिग्नल्स

(आईसी-58965) रोहित अरोरा, ईएमई

(आईसी-58966) नवीन सव्हेनेय, इंजीनियर्स

(आईसी-58968) रमैदा सिंह झिन्कवान, इंजीनियर्स

(आईसी-58969) निशांत सोलंकी, सिग्नल्स

(आईसी-58970) राकेश जुत्शी, एएडी

(आईसी-58972) गायकवाड विवेक उत्तमारो, एएडी

(आईसी-58973) विजय मौर्या, ईएमई

(आईसी-58974) नितीन यादव, एएडी

(आईसी-58975) विनीत शर्मा, ईएमई

(आईसी-58976) राहुल तयाल, सिग्नल्स

(आईसी-58977) शर्मा विशाल ओम प्रकाश, इंजीनियर्स

(आईसी-58978) एस प्रदीप कुमार, सिग्नल्स

(आईसी-58979) समीर बोदास, सिग्नल्स

(आईसी-58980) कीर्ति प्रताप सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-58981) गुम्मल्ला सुरी बाबु, ईएमई

(आईसी-58983) कर्मेन्द्र कुमार, एएडी

(आईसी-58984) यालादालु केशवानन्द चन्दन, इंजीनियर्स

(आईसी-58985) राहुल देवरानी, सिग्नल्स

(आईसी-58986) शंकर सिंह गौतम, सिग्नल्स

(आईसी-58987) मुनीष कुराल, सिग्नल्स

(आईसी-58989) विजय प्रकाश चतुर्वेदी, सिग्नल्स

(आईसी-58991) देवेन्द्र सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-58992) जीजु जोहैन्सन थोमस, ईएमई

(आईसी-58993) परमिंदर सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-58994) हरिन्दर पाल सिंह सिद्ध, ईएमई

(आईसी-58995) दीने सोइबम, इंजीनियर्स

(आईसी-58996) सज्जन सिंह, ईएमई

(आईसी-58997) निंगथोउजम बिरेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-58998) रजिन्दर सिंह सिद्ध, ईएमई

(आईसी-58999) राजीव सानन, ईएमई

(आईसी-59001) राकेश वर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-59002) विश्वनाथन आर, ईएमई

(आईसी-59003) देशपांडे अमित अरविन्द, इंजीनियर्स

(आईसी-59004) ए जोजी पौल, इंजीनियर्स

(आईसी-59005) योगेश भारद्वाज, सिग्नल्स
 (आईसी-59006) बेलोस सचिन नत्थुराम, सिग्नल्स
 (आईसी-59007) सौरभ साचर, इंजीनियर्स
 (आईसी-59008) अमीत लखनपाल, ईएमई
 (आईसी-59009) रोहित तुगनैत, सिग्नल्स
 (आईसी-59010) उमेश मरवाहा, ईएमई
 (आईसी-59011) राय अबीर तपन कुमार, ईएमई
 (आईसी-59012) अश्वनी त्यागी, इंजीनियर्स
 (आईसी-59013) सुदीप कुमार मिश्रा, इंजीनियर्स
 (आईसी-59014) देशपांडे अनील अनंतराव, ईएमई
 (आईसी-59015) एस वेलमुरुगन, सिग्नल्स
 (आईसी-59017) खडेकर योगेश गोविन्दराव, ईएमई
 (आईसी-59018) मृत्युंजय कुमार, ईएमई
 (आईसी-59019) कुलविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-59022) शुभेन्दू बोस, एएडी
 (आईसी-59023) आशुतोष कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-59024) रोहित नंदन प्रसाद, सिग्नल्स
 (आईसी-59025) गुरमीत सिंह, ईएमई
 (आईसी-59026) भुपिन्दर सिंह मान, सिग्नल्स
 (आईसी-59028) दिलराज सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-59029) चन्द्र भानु दास, ईएमई
 (आईसी-59032) महेश कुमार के एस, इंजीनियर्स
 (आईसी-59034) अशोक कुमार श्रीप्रल्हाद, एएडी
 (आईसी-59036) अमीत चन्दर, इंजीनियर्स
 (आईसी-59037) श्रीजीत एस, ईएमई
 (आईसी-59038) त्यागी आलोक कुमार, एएडी
 (आईसी-59039) मनोज कुमार यादव, ईएमई
 (आईसी-59040) सिवा सुब्रमनियम, इंजीनियर्स
 (आईसी-59043) एस आर सुरेश कन्नन, ईएमई
 (आईसी-59044) बुताला देवेन्दर मनोहर, ईएमई
 (आईसी-59045) अमीत कुमार, ईएमई
 (आईसी-59047) अरविन्द कुमार, ईएमई
 (आईसी-59049) प्रेमानन्द के, इंजीनियर्स

(आईसी-59050) राजीव शर्मा, ईएमई
 (आईसी-59051) तलेवार समीर जय कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-59052) हरप्रीत सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-59055) भारत भूषण कपूर, सिग्नल्स

--12 जून 2010

पी के शास्त्री
 मेजर
 एएमएस-8 बी

सेना शाखा

सं. 753, दिनांक 15 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल

आईसी सं., नाम तथा आर्म

(आईसी-56929) रमन गुप्ता, एसी
 (आईसी-56934) अनूप कुमार तिवारी, एसी
 (आईसी-56935) अमीत ओबराय, सिग्नल्स
 (आईसी-56938) सरीत प्रकाश, एसी
 (आईसी-56939) मोहिते केतन अरुण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56940) लोकेश कन्दपाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56941) रोहित हरिमोहन, आर्टी
 (आईसी-56943) कमलजीत सिंह मुलतानी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56944) अमीत यादव, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56945) आभाष अवस्थी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56947) अतुल वत्स, एएससी
 (आईसी-56948) सर्विन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56949) विशाल रंजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56950) धीरज रामानन्द, आर्टी
 (आईसी-56951) संतोष कुमार राणा, सिग्नल्स
 (आईसी-56954) निपून सूद, ईएमई
 (आईसी-56956) दुश्यन्त जोल्लू, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-56957) अजीत सिंह, एवीएन
 (आईसी-56958) अतुल भाटिया, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56960) योगपाल सिंह, एससी	(आईसी-57003) अदित्या हर्षय, इंजीनियर्स
(आईसी-56961) संतोष अतमाराम नौगान, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-57004) अजय पाल सिंह, आर्टी
(आईसी-56962) आकाश भारद्वाज, सिग्नल्स	(आईसी-57005) अनुराग राठौर, सिग्नल्स
(आईसी-56964) रोहित कौन्डिन्य, एवीएन	(आईसी-57006) सुजीत उपाध्याय, ईएमई
(आईसी-56966) राहुल ओबराय, इंजीनियर्स	(आईसी-57007) पुनीत प्रभानक भल्ला, ईएमई
(आईसी-56969) नीरज सिंह, एससी	(आईसी-57008) मनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56970) राकेश कुमार, आर्टी	(आईसी-57009) संदीप सिंह, ईएमई
(आईसी-56971) संजय कुमार ठाकुर, एससी	(आईसी-57010) पार्था प्रतीम पाल, आर्टी
(आईसी-56972) अनिल कुमार जोशी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57011) गुरज्योत सिंह शेरगिल, ईएमई
(आईसी-56974) ए राजेश, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57012) रवि रामानी अय्यर, इंजीनियर्स
(आईसी-56975) गोविन्दराज शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57013) विवेक त्रिपाठी, आर्टी
(आईसी-56976) हरमिस देसाई, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57014) हिमांशु हटकर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56977) रमित कपूर, एवीएन	(आईसी-57015) विवेक पुरी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56978) रोहित सागर, इंजीनियर्स	(आईसी-57016) अविन उधैया, एसी
(आईसी-56979) यललनागौडा डी मल्लुर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57017) कपिल अग्रवाल, एवीएन
(आईसी-56981) भानु प्रताप शर्मा, आर्टी	(आईसी-57019) वी सुरेश कल्लई, एससी
(आईसी-56982) राकेश कुमार, आर्टी	(आईसी-57020) गौतम कपूर, आर्टी
(आईसी-56983) किरण नारायण कुलकर्णी, ईन्ट	(आईसी-57021) सचिन अन्नाराव निम्बालकर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56984) दिलबाग सिंह, एएडी	(आईसी-57022) अलोक शंकर, सिग्नल्स
(आईसी-56985) रन्जु कुरियनस, आर्टी	(आईसी-57023) अजय कुमार सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-56986) चितेर सैन, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57024) सतीश कुमार श्रीवास्तव, एएडी
(आईसी-56987) संजोय कुमार भाद्रा, एससी	(आईसी-57025) मत्तक्कल डैनिस मैथ्यू थोमस, इंजीनियर्स
(आईसी-56988) आशीष पुन्दिर, ईएमई	(आईसी-57026) उदित जोशी, ईएमई
(आईसी-56989) राजेश बिष्ट, एओसी	(आईसी-57027) संजीव सिंह, एससी
(आईसी-56990) सुमीत शर्मा, ईन्ट	(आईसी-57028) संदीप वलिया, आर्टी
(आईसी-56991) अशीष दिक्षित, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57029) त्रिभुवन स्वप्निल विजयानंद, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56992) अंशुमन नारंग, आर्टी	(आईसी-57030) रमेश कुमार मलिक, सिग्नल्स
(आईसी-56993) अजय सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57031) सुशील कुमार पांडे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56994) विपिन शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-57032) बौबी आर पी सिंह, एससी
(आईसी-56997) नवरत्न सिबिया, आर्टी	(आईसी-57033) बाबा प्रदीप सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-56998) के एल राहुल, इंजीनियर्स	(आईसी-57034) अर्जुन उप्पाल, एसी
(आईसी-56999) अक्षय कपूर, आर्टी	(आईसी-57035) सन्धान मिश्रा, आर्टी
(आईसी-57002) दीप चन्द्रा सति, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57036) संजीव त्यागी, ईएमई

(आईसी-57037) अजय डोगरा, एससी	(आईसी-57075) विवेक अहलावत, आर्टी
(आईसी-57038) दीपक मोहन, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57078) गुरु प्रसाद आर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57040) के वरुण सिंह तनवर, आर्टी	(आईसी-57080) मनजीत सिंह पठानिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57042) अनिरबन चटर्जी, एओसी	(आईसी-57081) जगज्योत सिंह ढोड़ी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57043) अजय वर्मा, एडी आर्टी	(आईसी-57082) सुनील कुमार पांडे, एससी
(आईसी-57045) वी एल मुरली मोहन, आर्टी	(आईसी-57083) राजेश कुमार, एसी
(आईसी-57046) गुरतेज सिंह ग्रेवाल, आर्टी	(आईसी-57084) सुरेश बाबु ए बी, ईएमई
(आईसी-57047) मोनोज त्रिपाठी, एवीएन	(आईसी-57086) राहुल जोसन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57048) मनोज कुमार पटेल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57087) रिपून भल्ला, आर्टी
(आईसी-57049) रेवेटी भंडारी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57088) जयराम पदियपति, इंजीनियर्स
(आईसी-57050) राकेश शर्मा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57089) धीरज मिनोत्रा, इंजीनियर्स
(आईसी-57051) अजय ठाकुर, एओसी	(आईसी-57090) जितेन्द्र सिंह, एसी
(आईसी-57052) अभिषेक शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-57091) राम दास वर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57053) राने उमेश बालकृष्णा, इंजीनियर्स	(आईसी-57092) करमजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-57054) मानव सभरवाल, आर्टी	(आईसी-57094) संदीप प्रताप, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57055) विक्रम मगोत्रा, सिग्नल्स	(आईसी-57095) गिरीश कुमार, इंजीनियर्स
(आईसी-57056) नेने मनदार सुहास, इंजीनियर्स	(आईसी-57097) विशाल सक्सेना, आर्टी
(आईसी-57057) पीयूष कुमार, एवीएन	(आईसी-57098) विशाल देव, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-57059) प्रशांत जोशी, एसी	(आईसी-57100) हिमांशु बिष्ट, आर्टी
(आईसी-57060) राकेश कुमार, एओसी	(आईसी-57101) सुमेश्वर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-57061) जय प्रकाश चहल, ईएमई	(आईसी-57102) कृष्ण अनूप, ईएमई
(आईसी-57062) इम्तिवाज़ अहमद खान, आर्टी	(आईसी-57103) धनराज बासनेट, इंजीनियर्स
(आईसी-57063) अश्वनी सिन्हा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57104) दिनेश सिंह परमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57064) आर जयदीप, सिग्नल्स	(आईसी-57108) कौस्तुभ चट्टोपाध्याय, एसी
(आईसी-57065) वी शंकर, इन्ट	(आईसी-57109) सुरभ पांडे, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57066) सुनील नायर, इंजीनियर्स	(आईसी-57110) आकाश मिश्रा, आर्टी
(आईसी-57067) अदित्या श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57112) इवातुरी रमन राव, एओसी
(आईसी-57068) विनय सिड्ढिनेनि, आर्टी	(आईसी-57113) रवि कौल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57069) प्रेमांकु घोष, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57114) नवनीत कुमार, आर्टी
(आईसी-57070) अंकुश ठाकुर, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-57115) मनिन्दर कुमार सिंह, ईएमई
(आईसी-57071) एम डी गोपी कृष्णन, इंजीनियर्स	(आईसी-57116) अनिल कुमार जो, एससी
(आईसी-57072) संजीव कुमार चौधरी, सिग्नल्स	(आईसी-57117) राजीव कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57074) उत्तम चन्द, ईएमई	(आईसी-57119) सुभाष महातो, आर्टी

(आईसी-57120) कुलकर्णी निनाद रमेश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57121) सुधांशु दुबे, एसी
 (आईसी-57122) भानुप्रीत सिंह सैनी, सिग्नल्स
 (आईसी-57123) अनील कुमार, ईएमई
 (आईसी-57124) राजेश राधाकृष्णन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57125) राम आशारे पटेल, इन्ट
 (आईसी-57127) हरमीक सिंह वालिया, एएससी
 (आईसी-57128) एल श्याम कुमार, आर्टी
 (आईसी-57129) अलोक सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57130) विपुल सिंह राजपूत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57131) सलिल एम पी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57132) पीयूष कुमार व्यास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57133) पवन पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57134) गगन अरोरा, एवीएन
 (आईसी-57135) रजत बिष्ट, आर्टी
 (आईसी-57136) निरिन्दर कुमार, एएससी
 (आईसी-57137) विकास गुप्ता, इंजीनियर्स
 (आईसी-57138) रोहिताश शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57139) रोहित कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-57140) जीत बहादुर गुरुंग, एओसी
 (आईसी-57142) रमन प्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57143) राकेश कुमार डोगरा, आर्टी
 (आईसी-57144) जी एस सईकुमार, ईएमई
 (आईसी-57145) दत्तात्रेय बनसिध टिंगरे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57146) अनिरुध चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57147) सौमेन कुमार बादु, एसी
 (आईसी-57148) शशांक शेखर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57150) पटवर्धन संजीव परशुराम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57151) सुरेन्द्र सिंह, आर्टी
 (आईसी-57153) जगभान सिंह, ईएमई
 (आईसी-57154) जी सी विनोद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57155) सुरिन्दर कुमार, एएससी
 (आईसी-57157) सुंदर बिष्ट, इन्ट

(आईसी-57159) पंकज कुमार सिंह, आर्टी
 (आईसी-57160) परमजीत सिंह, एओसी
 (आईसी-57161) गुरदीप सिंह, एवीएन
 (आईसी-57162) सौरभ के शर्मा, आर्टी
 (आईसी-57163) अनिर्वान साह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57164) अदित्या वर्मा, आर्टी
 (आईसी-57165) सागर सिंह भैसोरा, एओसी
 (आईसी-57166) परकार राहुल दिवाकर, एएडी
 (आईसी-57167) शिवा कांत शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57169) आशीष कुमार पांडे, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57170) सचिit महिन्द्रू, एएससी
 (आईसी-57171) प्रशांत कुमार ओबराय, इंजीनियर्स
 (आईसी-57173) कनवर शैलेन्द्रा ठाकुर, एवीएन
 (आईसी-57174) जगमिन्दर सिंह गिल, एसी
 (आईसी-57175) अनिमेश कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-57176) उपेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57177) योगेन्द्र चौधरी, आर्टी
 (आईसी-57178) मोहम्मद इम्तियाज खान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57179) पी कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57181) दीपक इंदुराज, आर्टी
 (आईसी-57182) रविन्दर पाल सिंह, ईएमई
 (आईसी-57185) नवतेज सिंह ग्रेवाल, आर्टी
 (आईसी-57186) रूपेश अवस्थी, ईएमई
 (आईसी-57187) संजीव चोपड़ा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57188) मुकेश सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57189) विजय कुमार सिंघल, एसी
 (आईसी-57190) श्री कुमार नायर, सिग्नल्स
 (आईसी-57191) परमजीत सिंह, आर्टी
 (आईसी-57192) जतिन्दर सिंह गांधी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57193) रोहित यादव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57194) अमनदीप सागर, इंजीनियर्स
 (आईसी-57195) जिजु एस जी, एएडी
 (आईसी-57196) धरमवीर सिंह, इन्ट

(आईसी-57197) पंकज कुमार सिन्हा, ईएमई	(आईसी-57240) अनुराव त्रिवेदी, एओसी
(आईसी-57198) नितिन भाटिया, एवीएन	(आईसी-57241) विनोद कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57199) थोमस ऊम्मेन, एएससी	(आईसी-57242) ए वी किरन कुमार, आर्टी
(आईसी-57200) अनादी अत्रेया, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57243) रंजीव सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-57201) वेंकटेश जी कुलकर्णी, आर्टी	(आईसी-57244) प्रखर सिन्हा, आर्टी
(आईसी-57202) सिद्धार्थ मलिक, ईएमई	(आईसी-57245) के सलील कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57204) सिद्धार्थ चीब, एडी आर्टी	(आईसी-57246) नितिन चौहान, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-57206) संदीप शर्मा, एओसी	(आईसी-57247) विकास सिंह, एसी
(आईसी-57207) रविन्दर सिंह भंडारी, इंजीनियर्स	(आईसी-57248) उमेश ए परब, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57208) राजेश कुमार अवस्थी, आर्टी	(आईसी-57249) अखील मेहता, इंजीनियर्स
(आईसी-57209) जितेन्द्र कुमार, ईन्ट	(आईसी-57250) भुपेश कुमार श्रीवास्तव, सिग्नल्स
(आईसी-57210) अधीश ध्यानी, सिग्नल्स	(आईसी-57251) चिन्मय कुमार नायक, आर्टी
(आईसी-57211) सचित सुरी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57253) जगदीश चन्द्र पांडेय, आर्टी
(आईसी-57212) रजिन्दर पाल सिंह, एवीएन	(आईसी-57255) कुमार अंकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57213) सतिन्दर दाहिया, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57256) साना वेंकटा सुधीर, एएडी
(आईसी-57214) डोगरा बिक्रमजीत सिंह बी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57257) राजीव जोशी, आर्टी
(आईसी-57215) ब्रिज पाल सिंह, एएससी	(आईसी-57258) सिंह राजकुमार हवलदार सिंह, ईएमई
(आईसी-57216) पवन रावत, एओसी	(आईसी-57262) विशाल सचदेव, ईएमई
(आईसी-57217) सुखदेव सिंह चौधरी, एएडी	(आईसी-57263) दीपक जिनदाल, एओसी
(आईसी-57218) अशोक कुमार यादव, एएससी	(आईसी-57264) संजय कुमार राय, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57220) सोरोखैबम दिनेश सिंह, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-57265) विक्रम जीत, एएससी
(आईसी-57222) मैनेजेस अजय बोस्को जोशोह फ्रैन्की, आर्टी	(आईसी-57266) ऋषि राज सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57223) अभिषेक रंजन, इंजीनियर्स	(आईसी-57267) अमीत कुमार देयोली, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57225) राजेश कुमार नैथानी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57268) मुकुल गोयल, सिग्नल्स
(आईसी-57226) समरजीत गांगुली, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57269) उपेन्द्र नाथ पांडे, एएससी
(आईसी-57227) रिजवान यू आई राफिया खान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57270) संदीप दूर, एओसी
(आईसी-57229) सोनु तलुजा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57271) रविन्दर सिंह रावत, इंजीनियर्स
(आईसी-57231) पुनीत गुप्ता, एओसी	(आईसी-57272) प्रेयथुष पिल्लई, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57232) सुनील भट्ट, एएससी	(आईसी-57273) पतंगे सचिन दत्तात्रेय, आर्टी
(आईसी-57233) कनवाल प्रीत सिंह रेखी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57274) गुंजन चौधरी, आर्टी
(आईसी-57234) बिक्रमजीत सिंह विर्क, इन्फैन्ट्री	(आईसी-57275) विकास गोयल, इंजीनियर्स
(आईसी-57237) विवेक बिष्ट, सिग्नल्स	(आईसी-57276) हिमांशु बोहरा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-57238) अजय रावत, ईएमई	(आईसी-57278) शिवानंद बी सुतागत्ती, आर्टी
(आईसी-57239) आशीष कुमार, आर्टी	(आईसी-57279) सतीश कुमार मलिक, सिग्नल्स

(आईसी-57280) प्रदीप जी, एससी
 (आईसी-57281) विनसेट अल्लोयसियस, एओसी
 (आईसी-57282) जसविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57283) आलोक सिंह धर्मराज, ईएमई
 (आईसी-57284) अजय धानी, एओसी
 (आईसी-57286) जितेन्द्र कुमार बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57287) लालजीत प्रसाद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57288) प्रियदर्शी अमीत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57289) शैलेंद्र पुरि, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57291) शिंदे गिरिश बापराव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57292) भुवन खरे, ईएमई
 (आईसी-57293) बिक्रम अजीत सिंह, एएडी
 (आईसी-57295) विक्रम प्रसन्ना, आर्टी
 (आईसी-57296) विजय पुनदिर, सिग्नल्स
 (आईसी-57297) रजनीश शर्मा, ईन्ट
 (आईसी-57298) पिजुष डे, आर्टी
 (आईसी-57299) अविक् चटर्जी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57301) रुपेश प्रधान, इंजीनियर्स
 (आईसी-57302) बी एल कृष्णा किशोर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57303) आनन्द सिद्धार्थ कौरा, एससी
 (आईसी-57305) सौरभ जकोब, एससी
 (आईसी-57306) विजय गुलिया, ईएमई
 (आईसी-57307) कंवलजीत सिंह, एसी
 (आईसी-57308) राजेश कटोच, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-57309) विकास चन्दना, आर्टी
 (आईसी-57310) बारवे अभिजीत विद्याधर, आर्टी
 (आईसी-57313) पटिल सुनील अमगोनदा, एमएफ
 (आईसी-57315) नवनीत कुमार कौरा, एमएफ

--07 जून 2010

आईसी सं., नाम, आर्म व ले कर्नल दिनांक से

(आईसी-54482) देवेन्द्र नरहारी कोटनिस, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2009
 (आईसी-55654) विक्रम चंदेल, इन्फैन्ट्री, 24 अप्रैल 2010
 (आईसी-55678) जी कामेश, एओसी, 24 अप्रैल 2010
 (आईसी-55690) गोपाल सिंह चुन्दावत, इन्फैन्ट्री, 24 अप्रैल 2010

(आईसी-56612) समीर धर, इन्फैन्ट्री, 07 दिसम्बर 2009
 (आईसी-56712) निशित रंजन, आर्टी, 07 दिसम्बर 2009
 (आईसी-56904) प्रमोद नेगी, इंजीनियर्स, 07 दिसम्बर 2009
 (आईसी-56995) सुमीत अबरोल, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2010
 (आईसी-57073) आदित्य सहाय, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2010
 (आईसी-57106) विकास सिंह यादव, सिग्नल्स, 07 जून 2010
 (आईसी-57252) अमित कुमार माथुर, ईएमई, 07 जून 2010
 (आईसी-58982) प्रदीप राज, इंजीनियर्स, 12 जून 2010
 (आईसी-59027) अखिलेश सिंह, सिग्नल्स, 12 जून 2010
 (आईसी-59035) अश्विनी भारद्वाज, सिग्नल्स, 12 जून 2010
 (एसएल-04377) सुरेन्द्र गोधे, इंजीनियर्स, 26 अप्रैल 2010
 (एसएल-04441) गंगाधरन एम, ईएमई, 26 अप्रैल 2010

राहुल शर्मा
 ले कर्नल
 एएमएस 8 बी

थल सेना शाखा

सं. 754, दिनांक 16 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

एम कुमार (एमआर-06301ए), 08 जुलाई 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21 अप्रैल 2009 से दी जाती है।

ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

ले कर्नल अचल कुमार (एमआर-05284वाई), 10 अगस्त 2010

ले कर्नल आर एन राव (एमआर-06483वाई), 18 मार्च 2010

विंग कमांडर (व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

एन भटनागर (एमआर-05546के)(18703), 31 अगस्त 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 जुलाई 2009 से दी जाती है।

डो के जोशी (एमआर-05658के)(19329), 19 सितम्बर 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 अगस्त 2009 से दी जाती है।

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमांडर (व समकक्ष) के पद पर

सी सी वर्मा (एमआर-04678एल)(75288), 19 अक्टूबर 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22 सितम्बर 2009 से दी जाती है।

ए ए पवार (एमआर-04147एन)(75256), 09 नवम्बर 2009 वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.10.2009 से दी जाती है।

यश पाण्डे
ब्रिगे

उपमहानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 755, दिनांक 16 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एस एल)

कप्तान से मेजर

एसएल सं., नाम व आर्म

(एसएल-04753), राजू ए, एसएल/आर्च

--05 जुलाई 2009

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम, आर्म व मेजर दिनांक से

(आईसी-63673), क्षितिज कृष्णा श्रीवास्तव, इंजीनियर्स, 13 दिसम्बर
2009

(आईसी-63798), राहित सुरी, इंफैन्ट्री, 12 जून 2010

(आईसी-63868), सौरभ ममगैन, मेक, 12 जून 2010

(आईसी-64098), रंदीप सिंह सलाथिलय, एसी, 12 जून 2010

(आईसी-64128), नवीन मेहरा, इंफैन्ट्री, 12 जून 2010

(आईसी-66041), अनुज बिंद्रा, ईएमई, 20 अप्रैल 2008

(आईसी-68372), दीपक घलोत्रा, सिग्नल्स, 13 जून 2010

(आईसी-68390), सावंत विक्रम अशोक, सिग्नल्स, 13 जून 2010

(आईसी-68406), ससवाडे महेन्द्र मोहन, ईएमई, 13 जून 2010

(आईसी-61375), मणिक देव, आर्टी, 08 दिसम्बर 2007

(आईसी-62536), मनीष कुमार सिंह, इंफैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2008

राहुल शर्मा
ले कर्नल
एएमएस 8 बी

सेना शाखा

सं. 756, दिनांक 16 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एस एल)

ले से कप्तान

एसएल सं. नाम व आर्म

(एसएल-04988) राम पाल सिंह, आईईईएम/आईईएम

(एसएल-04989) बोबाडे अविनाश नारायण राव, आईईबी/आर एण्ड
एसडब्ल्यू

(एसएल-04990) संजय मिश्रा, टीओएसटी

(एसएल-04991) ग्राटिअस सी बी, आरओ

(एसएल-04992) मेथ्यू के टी, आरओ

(एसएल-04993) विरेन्द्र, आरओ

(एसएल-04995) कनकराज कोलावाट्याथ (केवी), आरओ

(एसएल-04996) परवीन, आरओ

(एसएल-04997) जे के अमूल राज, आरओ

(एसएल-04998) देवाशीष डे, आरओ

(एसएल-04999) नरोत्तम शर्मा, आरओ

(एसएल-05001) संतोष सिंह, आरओ

(एसएल-05002) अनमोल सिंह, आरओ

(एसएल-05003) प्रकाश पाटिल, आरओ

(एसएल-05004) रंजन कुमार, आरओ

(एसएल-05005) पंढारे शरद प्रकाश, आरओ

(एसएल-05006) सोजन जोसेफ, आरओ

(एसएल-05007) गिरिश एस बी, आरओ

--13 अगस्त 2010

अल्प कालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले से कप्तान

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि
व कप्तान दिनांक से

(एसएस-43939) सजन सुब्रमनि, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008,
एसएससी 32 (टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

(एसएस-43942) दिपांक सिंह, सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससी
32 (टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

(एसएस-43944) हरसिमरन दीप सिंह, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008,
एसएससी 32 (टी), 22 अप्रैल 2008, 22 अप्रैल 2010

पी के शास्त्री
मेजर
एएमएस-8बी

थल सेना विभाग

सं. 757, दिनांक 20 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार दिनेश कुमार साही (जेसी-176612ए), 01 अगस्त 2010

सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-498138डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

सूबेदार जय कृष्णा नन्दा (जेसी-748755एफ), 01 अगस्त 2010

सूबेदार कैलाश नाथ यादव (जेसी-214927डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

सूबेदार एस सोमन नायर (जेसी-224780वाई), 01 अगस्त 2010

सूबेदार सोहन सिंह वर्मा (जेसी-169779एफ), 01 अगस्त 2010

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार माहावीर प्रसाद पाण्डे (जेसी-262751एन), 01 जून 2010

नायब सूबेदार अशोक कुमार मौर्या (जेसी-264068एम), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-205416एल), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार भगवान सिंह यादव (जेसी-841491एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-841493पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सिद्दाना गौड़ा पाटील (जेसी-841497वाई), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार नाथु सिंह (जेसी-841499के), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार पी एम हरी कुट्टन पिल्लै (जेसी-841500एन), 01 अगस्त 2010

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) अजीत सिंह (जेसी-842003डब्ल्यू), 01 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार मदन लाल (सं. 3975136के अब जेसी-842793डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010*

हवलदार मदन सिंह (सं. 4061106एफ अब जेसी-842797एम), 01 जुलाई 2010*

हवलदार हंस राज (सं. 10465417वाई अब जेसी-842800एफ), 01 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

हवलदार मोहन सिंह यादव (सं. 4171425डब्ल्यू अब जेसी-842804एक्स), 02 अगस्त 2010**

हवलदार अमर नारायण शर्मा (सं. 13674703एन अब जेसी-842806एच), 01 अगस्त 2010**

हवलदार दिवानी चन्द (सं. 4171255एक्स अब जेसी-842807), 02 अगस्त 2010**

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 1260112के अब जेसी-842810एल), 01 अगस्त 2010**

हवलदार लक्ष्मी नारायण (सं. 13613142एन अब जेसी-842811एन), 02 अगस्त 2010**

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4060226पी अब जेसी-842812डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010**

हवलदार मोती लाल (सं. 10181428डब्ल्यू अब जेसी-842813वाई), 02 अगस्त 2010**

हवलदार के चन्तामरा (सं. 10165474एफ अब जेसी-842814एफ), 02 अगस्त 2010**

हवलदार कृष्णा प्रसाद (सं. 13951902एन अब जेसी-842815के), 02 अगस्त 2010**

हवलदार पी सिवासंकरन (सं. 10289375एम अब जेसी-842816एम), 01 अगस्त 2010**

हवलदार राम बिनोद सिंह (सं. 10227097एफ अब जेसी-842817पी), 02 अगस्त 2010**

हवलदार दया राम यादव (सं. 10435820डब्ल्यू अब जेसी-842818एक्स), 02 अगस्त 2010**

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 9082475एफ अब जेसी-842820पी), 05 अगस्त 2010**

हवलदार मोहनन अजुथली वलपिल (सं. 14336180एन अब जेसी-842822ए), 02 अगस्त 2010**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010)

हवलदार मसीह दास कन्डीर (सं. 4250898डब्ल्यू अब जेसी-842842एन), 01 सितम्बर 2010***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 758, दिनांक 20 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदेनितियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राम फल (जेसी-419412के), 20 अगस्त 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

सूबेदार सुरेंद्र सिंह रावत (जेसी-419493पी), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार एम त्रिवेद्रन (जेसी-419615एन), 06 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

सूबेदार जिलु सिंह सोलंकी (जेसी-419623एम), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार श्याम कुमार नेवार (जेसी-420710एम), 24 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-420659एक्स), 19 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-420784एफ), 23 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुखदेव राज (जेसी-420398पी), 06 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-420660एम), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार शिंदे उत्तम श्यामराव (जेसी-420696एल), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार राम चंदर (जेसी-420702एन), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-420882एफ), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-420726एक्स), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार सवाई सिंह (जेसी-420779डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार पपलेश कुमार (जेसी-420755एम), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-420780एल), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-420789ए), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार मोहन सिंह रावत (जेसी-420685वाई), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-420852के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार एम सेल्वा (जेसी-420916के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार सुरेश चंद (जेसी-421054एच), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-420847वाई), 01 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अमीन चंद (जेसी-420335एम), 21 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सोहदेव गुप्ता (जेसी-420402एम), 21 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मकर सिंह (जेसी-420437एच), 21 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मेघ सिंह राठौर (जेसी-420572डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरीश चंद्र सिंह (जेसी-420667डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामायन प्रताप सिंह (जेसी-420643एम), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार शंभु बहादुर गुरुंग (जेसी-420644पी), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार धरम राज शर्मा (जेसी-420795एन), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार रित लाल विश्वोक्तर्मा (जेसी-420782डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह (जेसी-420787पी), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-420790पी), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार गगन बहादुर राणा (जेसी-420825ए), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राधे श्याम राम (सं. 14914786पी अब जेसी-421644एफ),
30 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार बागुल पंकज सुभाषराव (सं. 14918223एम अब
जेसी-421645के), 01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार क्रिशन लाल (सं. 14915836एफ अब जेसी-421646एम),
03 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रामजी कुमार साहु (सं. 14915608वाई अब
जेसी-421647पी), 03 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार तापस कुमार बाग (सं. 14915609एफ अब जेसी-421648एक्स),
03 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार एम पंडारी (सं. 14915771वाई अब जेसी-421649ए),
03 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार कुशुम पाल सिंह चौहान (सं. 14915785वाई अब
जेसी-421650पी), 03 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पंकज कुमार मैथी (सं. 14916277पी अब जेसी-421651एक्स),
01 सितम्बर 2010

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14916371वाई अब जेसी-421652ए),
03 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 14917039पी अब जेसी-421653एच),
01 सितम्बर 2010

हवलदार हेर किशन (सं. 14915834डब्ल्यू अब जेसी-421654एल),
01 सितम्बर 2010

हवलदार ब्रिजेश कुमार सिंह (सं. 14917219एक्स अब
जेसी-421655एन), 01 सितम्बर 2010

हवलदार ओरी प्रसाद (सं. 14915243पी अब जेसी-421656डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2010

हवलदार मोहीन्दर सिंह (सं. 14915261एक्स अब जेसी-421657वाई),
01 सितम्बर 2010

हवलदार कपूर सिंह (सं. 14915360ए अब जेसी-421658एफ),
13 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सलीम अकिवत (सं. 14914806एक्स अब
जेसी-421659के), 06 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार जगमल सिंह (सं. 14915745एक्स अब जेसी-421660वाई),
01 सितम्बर 2010

हवलदार महेंद्र सिंह मेहता (सं. 14915516एम अब जेसी-421661एफ),
01 सितम्बर 2010

हवलदार हेबल राज मिश्रा (सं. 14916715एम अब जेसी-421662के),
01 सितम्बर 2010

हवलदार क्रिष्णा दास व्ही (सं. 14918438एल अब जेसी-421663एम),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) लोटके अर्जुन मुरलीधर (सं. 4072768के अब
जेसी-421664पी), 01 सितम्बर 2010

हवलदार (लिपिक) भूपेन्द्र सिंह (सं. 14916424एम अब
जेसी-421665एक्स), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार (लिपिक) रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) अशोक कुमार शर्मा (जेसी-420616एच),
01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) पी के शशीधरन (जेसी-420661पी),
01 सितम्बर 2010

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार जितेन्द्र कुमार सिंह (सं. 15461865एच अब जेसी-244397एफ),
01 जून 2010

दफादार थौदम उपेन्द्र सिंह (सं. 15461890एफ अब जेसी-244569एल),
01 सितम्बर 2010

दफादार जय कुमार (सं. 1098690वाई अब जेसी-244565पी),
22 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार देवेन्द्र सिंह भदोरिया (सं. 1098866वाई अब जेसी-244564एम),
22 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार सुभाष (सं. 1088997डब्ल्यू अब जेसी-244571एच),
03 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार दविन्द्र सिंह (सं. 1098995वाई अब जेसी-244573एन),
03 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश सिंह तोमर (सं. 1089897एक्स अब जेसी-244584ए),
01 सितम्बर 2010

दफादार नेताई कुमार घोष (सं. 15461709वाई अब जेसी-244587एन),
01 सितम्बर 2010

दफादार मनास कुमार मन्डल (सं. 15461735ए अब जेसी-244588डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2010

दफादार शिवलिंगप्पा डन्दीन (सं. 15461228एम अब जेसी-244612एफ),
17 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार राम लाल पोषवाल (सं. 15461240एन अब जेसी-244613के),
26 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार सुवाश चौधरी (सं. 15461261के अब जेसी-244614एम),
30 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार रामवीर सिंह राजपूत (सं. 1098628एम अब जेसी-244620ए),
01 सितम्बर 2010

दफादार कुलतार सिंह (सं. 1089712एल अब जेसी-244630के),
30 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार महा सिंह (सं. 15461682एम अब जेसी-244634ए),
06 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश सिंह (सं. 15461311के अब जेसी-244635एच),
26 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरप्रीत सिंह (सं. 15464335वाई अब जेसी-244637एन),
01 सितम्बर 2010

दफादार जीवराज सिंह शेखावत (सं. 1098916वाई अब
जेसी-244638डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

दफादार सुभाष कुमार सिंह (सं. 1089845एफ अब जेसी-244639वाई),
01 सितम्बर 2010

दफादार अवदेश वर्मा (सं. 1098764एच अब जेसी-244640एन),
01 सितम्बर 2010

दफादार एम करुणा सामी (सं. 10987786एक्स अब जेसी-244641डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2010

दफादार उपेन्द्र सिंह (सं. 1099325के अब जेसी-244642वाई),
01 सितम्बर 2010

दफादार विजेन्द्र सिंह (सं. 1099134पी अब जेसी-244643एफ),
02 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार अरूल आनंदा राजन सी (सं. 15462527एक्स अब
जेसी-244656वाई), 04 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार विजय सिंह (सं. 15463416एम अब जेसी-244657एफ),
04 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राकेश कुमार शुक्ला (सं. 15463653डब्ल्यू अब
जेसी-244658के), 04 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रकाश गीर अत्री (सं. 15463674एम अब जेसी-244644के),
01 सितम्बर 2010

दफादार रूपन सिंह (सं. 15461957एफ अब जेसी-244646पी),
30 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरविन्द्र सिंह (सं. 15462345के अब जेसी-244572एल),
22 अगस्त 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

थलसेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 759, दिनांक 20 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
पदोनतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

भोला नाथ घोष (सं. 14613170डब्ल्यू अब जेसी-764678एफ),
02 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

जागेश कुमार (सं. 14590092पी अब जेसी-765015एच), 01 जुलाई
2010

बंशी लाल (सं. 14613073वाई अब जेसी-765016एल), 01 जुलाई
2010

सत्यब्रता घोष (सं. 14613918एम अब जेसी-765017एन),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में

सतीश कुमार सिंह (सं. 14623337एच अब जेसी-764707एल),
19 जुलाई 2010/01 अप्रैल 2010*

प्रमोद कुमार तिवारी (सं. 14595871एफ अब जेसी-765145एल),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वेहीकल के रैंक में

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14621221एन अब जेसी-764797एक्स),
29 जुलाई 2010/01 मार्च 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

ईश्वर सिंह (सं. 14623666वाई अब जेसी-764947एच), 01 मई
2010

बलजीन्दर सिंह ढिल्लो (सं. 14621162एम अब जेसी-765044एक्स),
01 जुलाई 2010

बृजेन्द्र कुमार गर्ग (सं. 14621183एच अब जेसी-765045ए),
01 जुलाई 2010

शाजू पी (सं. 14621435के अब जेसी-765046एच), 01 जुलाई
2010

वी थामीज्हनबन (सं. 14622839वाई अब जेसी-765125एक्स),
02 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

राजेश कुमार (सं. 14622889के अब जेसी-765126ए), 01 जुलाई
2010

प्रताप विक्रम सिंह (सं. 14622900एक्स अब जेसी-765127एच),
01 जुलाई 2010

शिव राम सावंत (सं. 14622959एक्स अब जेसी-765129एन),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में
अवदेश कुमार (सं. 14599344एक्स अब जेसी-764808वाई),
18 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010*

पूर्ण चन्द्र महंता (सं. 14610188एफ अब जेसी-765034एन),
01 जुलाई 2010

बाबू लाल (सं. 14610640एल अब जेसी-765036वाई), 01 जुलाई
2010

राज कुमार (सं. 14611411एम अब जेसी-765079एन), 03 जुलाई
2010/01 जुलाई 2010*

ईयप्पन टी (सं. 14612150डब्ल्यू अब जेसी-765080एच), 01 जुलाई
2010

नरेश पाल (सं. 14611432एम अब जेसी-765082एन), 01 जुलाई
2010

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14611484वाई अब जेसी-765083डब्ल्यू),
03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

वंजोल अनिल मधुकर (सं. 14622357के अब जेसी-765088पी),
01 जुलाई 2010

संजीव कुमार तिवारी (सं. 14613320एफ अब जेसी-765090एम),
01 जुलाई 2010

सी वी उन्नी कृष्णनन (सं. 14615178एफ अब जेसी-765091पी),
01 जुलाई 2010

रूपेश्वर प्रसाद शुक्ला (सं. 14619201एफ अब जेसी-765099एफ),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू

महकार सिंह (सं. 14584713एम अब जेसी-764986एफ),
01 जुलाई 2010

तुलसी सिंह (सं. 14584722एन अब जेसी-764987के), 01 जुलाई
2010

बालेश्वर सिंह (सं. 14584729एक्स अब जेसी-764988एम),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एफ (ए एफ)

जे शंकर (सं. 14627776एल अब जेसी-765049डब्ल्यू), 01 जुलाई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रीकवरी) के रैंक में

माने बाला साहेब शिवाजी (सं. 14568901के अब जेसी-765060पी),
10 जून 2010/06 जून 2010*

दिलीप चन्द्र पौल (सं. 14570383एन अब जेसी-765064एल),
01 जुलाई 2010

गोविन्द जी (सं. 14581377ए अब जेसी-765067वाई), 01 जुलाई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक बी वेहीकल के रैंक में
खन्डेकर निनप्पाबा (सं. 14568652डब्ल्यू अब जेसी-765062ए),
08 जून 2010/06 जून 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में
कैलाश चन्द्र (सं. 14616169एम अब जेसी-765108एक्स),
05 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

इन्द्रमा सिंह (सं. 14618677एफ अब जेसी-765118एफ), 01 जुलाई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो ईलेक्ट के रैंक में
रूपराम सिंह (सं. 14591443एल अब जेसी-765146एन), 01
जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी रैंक में
अनवर अली (सं. 14586529ए अब जेसी-765154एम), 01 जुलाई
2010

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)।

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में
छोटे लाल (सं. 14599182एक्स अब जेसी-764810डब्ल्यू),
12 जुलाई 2010/01 मार्च 2010*

पी जोथी (सं. 14611276के अब जेसी-765038के), 01 जुलाई
2010

सिया राम (सं. 14611304एल अब जेसी-765039एम), 01 जुलाई
2010

ब्रिजवीर शर्मा (सं. 14619153एम अब जेसी-765096एन),
01 जुलाई 2010

राम गोपाल गोंड (सं. 14618969के अब जेसी-765097डब्ल्यू),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

जयबीर दास (सं. 14568742एक्स अब जेसी-764981एच),
10 जून 2010/01 जून 2010*

हबिबुज्जामन (सं. 14579985एच अब जेसी-764982एल),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू

एन मणिक्कम (सं. 14585042ए अब जेसी-764985वाई),
01 जुलाई 2010

सुखेन्द्र सिन्हा (सं. 14582893एफ अब जेसी-765055के), 11 जून
2010/02 मई 2010*

अजाद अहमद (सं. 14584746एक्स अब जेसी-765056एम),
01 जुलाई 2010

गिरराज सिंह (सं. 14643550के अब जेसी-765059ए), 08 जून
2010/08 नवम्बर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी

देश राज (सं. 14613877एन अब जेसी-765007के), 01 जुलाई
2010

योगेश्वर कान्त यादव (सं. 14613878डब्ल्यू अब जेसी-765008एम),
02 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

सुरेश कुमार ओझा (सं. 14613886पी अब जेसी-765009पी),
01 जुलाई 2010

अनूप कुमार मैटी (सं. 14613912एल अब जेसी-765012पी),
01 जुलाई 2010

सत्येन्द्र नाथ मंडल (सं. 14613916एफ अब जेसी-765013एक्स),
01 जुलाई 2010

के पी थोमस (सं. 14588648पी अब जेसी-765018डब्ल्यू),
01 जुलाई 2010

ब्रह्म दास (सं. 14590649डब्ल्यू अब जेसी-765023एफ), 08 मई
2010/01 मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूटेशन के रैंक में
बिनू एम टी (सं. 14635398एम अब जेसी-765051एन), 08 जून
2010/08 नवम्बर 2009*

मनोज कुमार (सं. 14621936के अब जेसी-765119के), 01 जुलाई
2010

रुद्र दत्त (सं. 14621941पी अब जेसी-765120वाई), 01 जुलाई
2010

करण सिंह राठौर (सं. 14623002एल अब जेसी-765130एच),
01 जुलाई 2010

संतोष कुमार टी (सं. 14623139एक्स अब जेसी-765133डब्ल्यू),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट

सुभाष चंद (सं. 14582842एन अब जेसी-765053वाई), 09 जून
2010/01 जून 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)
के रैंक में

नरेश कुमार सिंह (सं. 14568919ए अब जेसी-765061एक्स),
10 जून 2010/06 जून 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल
के रैंक में

अर्जुन प्रसाद (सं. 14569063एम अब जेसी-765063एच),
10 जून 2010/06 जून 2010*

राजबीर सिंह (सं. 14569502एम अब जेसी-765070वाई),
01 जुलाई 2010

अरोकिया दास एम (सं. 14569575वाई अब जेसी-765071एफ),
01 जुलाई 2010

दारूल हुसैन बर्हुइया (सं. 14569602एक्स अब जेसी-765072के),
01 जुलाई 2010

भगौती प्रसाद पाठक (सं. 14570214एम अब जेसी-765076ए),
01 जुलाई 2010

राकेश कुमार (सं. 14570651एम अब जेसी-765077एच),
01 जुलाई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए बी एफ (ए बी एन)
एंथोनी जयशंकर (सं. 14626732एम अब जेसी-765078एल),
24 जून 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार
हरेन्द्र मिश्रा (सं. 14577906के अब जेसी-765101एन), 01 जुलाई
2010

परसुराम गौड (सं. 14572799के अब जेसी-765160ए), 03 जुलाई
2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार नेट वर्किंग के रैंक में
पान सिंह महारा (सं. 14615361के अब जेसी-765113एन),
01 जुलाई 2010

जयबीर (सं. 14618414एच अब जेसी-765117वाई), 01 जुलाई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मैटलर्जी के रैंक में
सत्येन्द्र बहादुर सिंह (सं. 14583041वाई अब जेसी-765153के),
06 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 760, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010--माननीय राष्ट्रपति महोदय,
निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायुसेना

स्कवा ली से विंग कमांड के मूल रैंक पर

एफ (एन) शाखा

ए ए केलकर (24256), अमिताभ सिन्हा (24255), पॉल डेविस
(24252), ऋत्विक् घोष (24253), हरजिन्दर दुआ (24254), कुणाल

काला (24246), पवन धरवाल (24247), पी वेणुगोपाल (24248),
आर के बिस्वास (24249), पी सिंह (24250)--21 दिसम्बर 2009 से
प्रभावी

एफ (पी) शाखा

पी अवस्थी (23988), एम शिव (24034), के कुमार (24050),
आर प्रकाश (24043), आर मिश्रा (24012), एस भण्डारी (24010),
एस सूरज (24037), एन कंवर (24030), जे पी राजू (24031), एन
एस पुन्नु (23996), ए दत्ता (23997), के कौशल (23992), वी
गुप्ता (23995), एम गंगोला (23981), जी एम त्रिपाठी (23976),
एस नारायणन (23977), आर जैन (23978), टी गोपीनाथ (23973),
ए सूद (24028), के कुमार (24024), जे एस अहलुवालिया (24015),
ए दत्ता (24016), प्रशांत (24001), एन नायडू (23986), आर माथुर
(3987), डी आर चौधरी (23983), ए कुकरेती (24032), पी वत्स
(24019), एम रावत (24020), वीआर निक्कम (24014), आर के
सत्यथि (24044), एस सक्सेना (24039), एस के एस साठे (24041),
नरसिंह सैलानी (24003), ए शर्मा (24026), एस अग्रवाल (24045),
एम कोठारी (24047), ए जयसवाल (24021), एस प्रभु (23990),
वी वी काले (24009), के एस रघुमन (24038), एस शर्मा (24008),
जयशंकर श्रीराम (23980), एन दासगुप्ता (24006), आर अनेजा
(23989), एन गर्ग (23982), पी बैनर्जी (24002), बी प्रताप
(243000), एस सिंह (24011), एस आर दास (24040), ए देव
(24017), एस के आनंद (23991), आर एन झा (24042), आर
दोभल (24022), आर सिंह (23998), आर पी श्रीवास्तव (24046),
टी एन मणिकंदन (24027), बी एस गिल (24007), जे आर त्यागराजन
(24049)--29 जून 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

डी ठाकुर (23979)--29 जून 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

डी चक्रवर्ती (24005)--29 जून 2009 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

ए सौदी (22916)--25 अक्टूबर 2009 से प्रभावी (18 जून 2007
से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

प्रशासन शाखा

संजय वर्मा (22591)--01 जुलाई 2008 से प्रभावी

एस के अस्थाना (23216)--01 अप्रैल 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एम एस रावत (23272)--01 जुलाई 2008 से प्रभावी

एम वर्धीस (23827)--16 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

अनुज गुप्ता(24403)--29 सितम्बर 2009 से प्रभावी

(22 नवम्बर 2008 से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

एफ (पी) शाखा

सारंग वशिष्ठ (24321)--15 फरवरी 2010 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

ए पी एस हुड्डा (24217), रोशा (24241), एम पाण्डे (24231), एन सिंह (24224), वी सिरौही (24225), एन शर्मा (24209), ई रघुराज (24232), वाई आटे (24235), ए पी देशपाण्डे (24218), वी एस देसाई (24213), ए आर वाघमरे (24175), कुणा गिमें (24205), पी पाण्डे (24196), एम प्रकाश (24188), आर सांगवान (24189), वी रेहानी (24183), पी आर सेन (24186), एम फैजल (24180), जी शेटी (24177), एम शिलु (24221), ए बक्शी (24222), पी बत्रा (24206), जी आदित्यकिरण (24207), डी सोथिया (24170), ए एन करूलकर (24166), संजय पॉल (24167), एन एस तिकें (24192), वी जी कृष्णा (24233), एम वी एल एन राव (24187), आर भंजोइस (24227), वी राघवन (24243), ए के अहलात (24210), आर एस भण्डारी (24198), एस प्रधान (24236), वी के सिंह (24223), एस कुमार (24199), ए चतुर्वेदी (24202), ए डी भारद्वाज (24226), ए प्रकाश (24245), ए सक्सेना (24237), भूपेन्द्र सिंह सहरावत (24203), एस जी मोरे (24176), आर गाखड़ (24234), वी शुक्ला (24228), एस शर्मा (24190), एस कपूर (24193), एस के गोरे (24719), एम ठाकुर देसाई (24200), वी. गुप्ता (24169), एच यादव (24171), जी सिंह (24230), पी सिंह (24201), एस के सिंह (24191), रवि अब्राहम (24219), जी एस सोहल (24181), एस कुमार (24195), गोविंद भीकाजी पटोले (24211), ए धामी (24172)--21 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

ए एम बग्गा (24242), पी ए ग्रीएगरी (24240), ए वी पेटिया (24197)--21 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

यादव ए डी (24178)--21 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

फ्ला लेफ्ट से स्कवा ली के मूल रैंक में

ए ई (एम) शाखा

जी वी हेगडे (27913)--19 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

सी एल शर्मा (27815), एस के सिंह (27816), एच के शर्मा (27814)--19 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

आर एन गुप्ता (27817)--03 जून 2010 से प्रभावी

डी चतुर्वेदी (27818)--18 जून 2010 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एच ओ भारद्वाज (27568)--21 जुलाई 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एस सक्सेना (27517), एस के निगम (27519), एस के ओझा (27503), प्रदीप कुमार एस पिल्लै (27504), ए मेनन (27520), जी जे सिंह (27521), आर अरूण कुमार (27522), के थण्डापाणि (27501), एम गोपीनाथ (27502), ए दहिया (27527), एम डी आर सी एस मेनन (27528), आर शर्मा (27505), पी वी रमण राव (27506), आर सचिन (27507), एम पी ढांड (27508), ए जयसवाल (27518), ए शाह (27516), अजय कुमार (27515), पी पाठक (27514), ए मजूमदार (27513), ए के तिवारी (27526), हरिओम (27525), वी वी शाह (27524), एम टी नायर (27523), एन के पाल (27512), बी मोहंता (27511), एम सूरेंद्र (27510), सी पी गुप्ते (27509)--21 जुलाई 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

एस सक्सेना (27538), एम सूद (27530), वी डी इंगले (27535), संदीप (27534), जी पद्म कुमार (27531), वी एस नेगी (27536), एस गांगुली (27537), एस यू नायर (27529), वी सरपाल (27532) वी नायर (27533)--21 जुलाई 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

एन पोखरियाल (27541), मनोज कुमार यादव (27540), पी एस गुजराल (27539)--21 जुलाई 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

ए एन तिवारी (27542)--21 जुलाई 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

ए यादव (27744), आर सांगवान (27743), पी पाण्डा (27726), ए के सारस्वत (27739), वी डी वी बलिगा (27740), एस नायक (27741), वी नारायण (27734), एस सी सिंह (27735), डी पाण्डा (27736), एस कुमार (27737), एस ए अनिमेश (27733), ए पी रेड्डी (27738), ए अवस्थी (27730), वी बहुखण्डी (27731), डी के पेन्नितिरा (27746), एस एस जैन (27747), ए शर्मा (27748), एम एस कबावत (27732), जे एस सूबी (27729), ए दुआ (27727), एम मनमाधन (27750), वी वी मरवाडकर (27749), पी पॉल (27742), आर शर्मा (27745)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस के दास (27761), वी एस देशपाण्डे (27751), पी उपाध्याय (27753), पी के झा (27754), आर कुरियन (27752), एन अनियाल (27758), जे पी पुलिकेशी (27764), एस मस्तान (27759), आर एन एम त्रिपाठी (27760), डी शर्मा (27735), पी के रे (27756), जी एस पॉल (27757), शरत जोस (27763)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

शाजी एस जी नायर (27767), एम साहू (27766), के संदीप राव (27771), ए शिवहरे (27770), स्वदीप शर्मा (27765), अभिनव सेलोत (27768), वी गुप्ता (27769)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एम के सिन्हा (27820), एम के मिश्रा (27819)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एन के सिंह (27821)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

बी कुट्टन (27822), यू के प्रामाणिक (27823)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

फ्ला लेफ्ट से स्क्वा ली के मूल लैंक पर

अल्प सेवा कमीशन

ए ई (एम) शाखा

जी तेजस्विनी (27624), पी पाण्डे (27623)--07 जुलाई 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

एम बी केसलीनो (27625), एस बिट्टू (27627), पूनम (27626)--07 जुलाई 2009 से प्रभावी

अल्का पाण्डे (27628)--16 अक्टूबर 2009 से प्रभावी

एन विजय कुमार
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर-3(डी)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 761, दिनांक 21 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के पद में वेतनमान रुपये 15,600--39,100/- (पे बैंड-3)+6,600/- ग्रेड पे।

नाम, स्थापना/प्रयोगशाला, दिनांक

जेम्स, सीवीआरडीई, चेन्नै, 01 जुलाई 2010

नन्द गोपाल रामादौस, सीवीआरडीई, चेन्नै, 01 जुलाई 2010

पार्थसारथी, सीवीआरडीई, चेन्नै, 01 जुलाई 2010

पी वसुंधरा, सीवीआरडीई, चेन्नै, 01 जुलाई 2010

विरेंद्र कुमार जायसवाल, डेयर बंगलौर, 01 जुलाई 2010

सौरभ शुक्ला, डेयर बंगलौर, 01 जुलाई 2010

केसरी कुमार, डेयर बंगलौर, 01 जुलाई 2010

सुरेंद्र कुमार, डेबेल, 01 जुलाई 2010

एस नागराजन, डेबेल, 01 जुलाई 2010

बाला कृष्णा कुन्दरू, डीएफआरएल, मैसूर, 01 जुलाई 2010

शैलजा आर, डीएफआरएल, मैसूर, 01 जुलाई 2010

अतेन्द्र सिंह चौहान, डीएमएसआरडीई, कानपुर, 01 जुलाई 2010

रुदेश कुमार, डीएमएसआरडीई, कानपुर, 01 जुलाई 2010

संदीप कुमार, डीएमएसआरडीई, कानपुर, 01 जुलाई 2010

कमलेश कुमार, डीएमएसआरडीई, कानपुर, 01 जुलाई 2010

अमित झा, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

राजेश कुमार मीणा, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

मुकेश सिंह, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

दीपक कुमार दूबे, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

देवेन्द्र शर्मा, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

दीप्ति जोशी, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

निशि सिन्हा, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

मनीष टंडन, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

कमल कुमार गुलाटी, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

अन्जेष कुमार, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

आशीष पांडे, लेसटेक, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

विपारिया चन्द्रकान्त, एलआरडीई, बेंगलौर, 01 जुलाई 2010

मनीषा वाम्ने, एलआरडीई, बेंगलौर, 01 जुलाई 2010

शान्तनु गर्ग, एलआरडीई, बेंगलौर, 01 जुलाई 2010

अमित गोयल, एलआरडीई, बेंगलौर, 01 जुलाई 2010

रजनीश गुप्ता, टीबीआरएल, चण्डीगढ़, 01 जुलाई 2010

सुमित कथुरिया, टीबीआरएल, चण्डीगढ़, 01 जुलाई 2010

संदीप कुमार कटोच, टीबीआरएल, चण्डीगढ़, 01 जुलाई 2010

विक्रम सिंह, टीबीआरएल, चण्डीगढ़, 01 जुलाई 2010

दिनेश कुमार, टीबीआरएल, चण्डीगढ़, 01 जुलाई 2010

पुष्पांजली मित्रा गौतम, टीबीआरएल, चण्डीगढ़, 01 जुलाई 2010

मनोज कुमार, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

अरविंद, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

अरविंद कुमार, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

सोनिका, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

गजराज कुलदीप, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

डॉ. गिरीश पांडे, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

डॉ. सरताज उल हसन, एसएजी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 मनीष कुमार सिन्हा, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 अक्लेश कुमार मीणा, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 आनन्द सिंह, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 सोविन्दर सिंह राणा, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 राकेश कुमार पांडे, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 पर्वत कुमार दास, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 कुमारी मोनिका चौधरी, एसएसपीएल, दिल्ली, 01 जुलाई 2010
 कुमारी अन्जु माला, आरएसी, दिल्ली, 01 जुलाई 2010

नरसिंह साहु
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 762, दिनांक 21 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नति करते हैं:--

नाम, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड, पदोन्नत ग्रेड का पे बैंड और ग्रेड पे (रु.), पदोन्नति ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

आर साई गौथरा गिरिधरन, आरएसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए एस मनोहरन, सीएआईआर, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

एल उमेश, सीएआईआर, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100)+5,400/-, 01 सितम्बर 2010

बी बी गणेश मुर्थी, डीएआरई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

वी वेंकटेश जोशी, डीएआरई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

देवराज (अनु. जा.), डीएआरई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100)+5,400/-, 01 सितम्बर 2010

एम के पंत, डीआईबीआईआर, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100)+7,600/-, 01 सितम्बर 2010

आर पी जोशी, डीआईबीआईआर, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए एस भोज, डीआईबीआईआर, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100)+5,400/-, 01 सितम्बर 2010

पौलिन थोमस, डीआईपीएएस, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (15,600--39,100)+7,600/-, 01 सितम्बर 2010

ए के त्यागी, डीआईपीएएस, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

करन पाल, डीआईपीएएस, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (15,600--39,100)+6,600/-, 01 सितम्बर 2010

अन्जना पाठक, डीआईपीएएस, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (15,600--39,100)+5,400/-, 01 सितम्बर 2010

नीलम कान्ता मलिक, डीआईपीएएस, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (9,300--34,800)+4,800/-, 01 सितम्बर 2010

बी बी शर्मा
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक-टीसी)

थल सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 763, दिनांक 22 दिसम्बर 2010--राष्ट्रपति भारत के राजपत्र (खण्ड-I, भाग-4) में 19 जून 2010 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक नियमित सेना/स्थायी कमीशन व उपशीर्षक मेजर जनरल (व समकक्ष) से लेफ्टिनेन्ट जनरल (व समकक्ष) के पद पर सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

मेजर जनरल (व समकक्ष) से लेफ्टिनेन्ट जनरल (व समकक्ष) के पद पर

के स्थान पर

नरेश कुमार (एमआर-03044एच), 27 मई 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जनवरी 2009 से दी जाती है।

पढ़ा जाए

नरेश कुमार (एमआर-03044एच), 27 मई 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे

उपमहानिदेशक ससेचिसे (मा.स.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th January 2011

(ARMY BRANCH)

No. 742, dated 10th December, 2010—The President is pleased to make the following appointment under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Lt Col to be Col

Radhakrishnan Vijayanathan (DR-10379H), 11 Feb 2009
(with notional Seniority from 16-03-2007)

(Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 27.06.2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled)

Maj to be Lt Col

Radhakrishnan Vijayanathan (DR-10379H), 11 Feb 2002

(Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 05.01.2002 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled)

Capt to be Maj

Radhakrishnan Vijayanathan (DR-10379H), 11 Aug 1994

(Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 07.02.1998 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled)

Lieut to be Cap

Radhakrishnan Vijayanathan (DR-10379H), 11 Aug 1989

(Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 07.02.1998 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled)

MAHESH CHANDER

Maj Gen

Addl DGDS

ARMY HEADQUARTERS

E-IN-C'S BRANCH

No. 743, dated 10th December 2010—The President is pleased to appoint the following Section Officers of AFHQ Civil Service as officiating Deputy Director (Group A, Gazetted) (Grade Pay Rs. 6,600/- in Pay Band-II) under the Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 01 July 2010 to 31 Dec 2010 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

BS Brar

Anjan Sikdar

Ghurey Singh

Ranjan Chakraborty

Ram Kishan

Amitava Lodh

K Giridharan

Hemant Kumar Hem

B C Bosh

K Sudeesh Kumar

Janak Dhawan

N D Pau

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The competent authority appoints the following Assistants of AFHQ Civil Service as officiating Section Officer (Group-B, Gazetted) (Grade Pay Rs. 4,800/- in Pay Band-II) under the Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 01 July 2010 to 31 Dec 2010 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

Aquil Qais

Bhim Sain

Jaggu Ram

Ashok Kumar Rathore

Ramesh Baboo

Suresh Chand Badola

R C Goyal

A K Chandi

I R Chhabra

Kamlesh Khanna

Savitri Behl

S K Chaterjee

Rajesh Kumar Singh

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

A K LAROIYA

Dy Chief Administrative Officer (A)

INTEGRATED HEADQUARTERS—MIN OF DEFENCE
(NAVY)

(DTE OF ADMIN/CIV SECTION)

No. 744, dated 10th December 2010—The President is pleased to extend the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service as Dy Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with GP Rs. 6,600/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for the period 01.01.2010 to 30.06.2010 or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Amit Kumar

B P Sharma

Balbir Singh Arora

D C Tyagi

D V Singh

D S Arora

K C Bhardwaj

K D Mitra

K M Hemlatha

M K Jha

M A Khan

Sandeep Kumar

Man Singh

Milind Honwad

P N S Yadav

P P Taneja

Pradeep Kumar

Pramod Kumar

R K Sahrawat

R M Shukla

S Hemant Kumar

Sudhir Kumar

U S Latwal

Jagdish Singh—01 Jan 2010 to 31 Jan 2010

2. These appointments are made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

The following Assistants of AFHQ Civil Service have been appointed as Section Officer (Group 'B' Gazetted) by the Competent Authority in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with GP Rs. 4,800/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for the period mentioned against their name or

till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Prem Kumar 25 May 2010 to 18 Oct 2010

Sneh Rani Saxena 25 May 2010 to 18 Oct 2010

Savitra Parcha 01 Jul 2010 to 18 Oct 2010

A K Panwar 01 Jul 2010 to 18 Oct 2010

Sunita Mongia 04 Aug 2010 to 31 Dec 2010

Mahesh Kumar 04 Aug 2010 to 31 Dec 2010

Om Veer 04 Aug 2010 to 31 Dec 2010

Raj Pal Singh 04 Aug 2010 to 31 Dec 2010

These appointments are made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

A K LAROIYA
Dy CAO(A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 745, dated 13th December 2010—The President is pleased to make the following appointment :—

R Venkatesan, to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in SPIC, Delhi with effect from 28 Jan 2008 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7,600/-

NARSINGH SAHU
Jt Dir (Pers)

No. 746, dated 13th December 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

Having qualified in the Limited Departmental Examination 2007 held in terms of Rules 8-1(a) of DRDS Rules, 1979, the undermentioned individuals to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100 (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :—

Pin No., Name, Estt, Date of Apptt

(2008AB1431) D H Chimurkar, STA 'B', HEMRL, Pune, 20 Oct 2008

(2008AB1453) Vipin Kumar Singh, STA 'B', HEMRL, Pune, 20 Oct 2008

2. The entry relating to D H Chirmurkar, Sc 'B' (SI No. 23), & Vipin Kumar Singh, Sc 'B' (SI No. 25) appearing at DGN No. DOP/08/88038/DGN/Sc 'B' dated 30 Jun 2009 may be treated as deleted.

The President is pleased to make the following appointments :—

The Under mentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :—

Pin No., Name, Estt./Lab and Date of Joining

(2008AB1004) Satish Kumar Divya, ADE, Bangalore, 21 May 2008

(2010AB1167) Guru Prasad, ADRDE, Agra, 19 May 2010

(2009AB1672) Ridhi Bhatia, ADRDE, Agra, 01 Dec 2009

(2008AB1037) K Ramakanth Reddy, ANURAG, Hyderabad, 21 May 2008

(2010AB1110) Rahul Pal, ASL Hyderabad, 19 May 2010

(2008AB1089) Raj Kishore Das, ASL Hyderabad, 21 May 2008

(2008AB1101) Guru Sudhakar Jutur, ASL Hyderabad, 21 May 2008

(2007AB1333) Ramesh Vanam, ASL Hyderabad, 23 May 2007

(2010AB1025) Aparna PV, CABS, Bangalore, 19 May 2010

(2010AB1075) Appu Shankar V, CAIR, Bangalore, 19 May 2010

(2008AB1157) Ram Prabhu T, CEMILAC, Bangalore, 03 Jun 2009

(2008AB1061) R Shanmugavel, CEMILAC, Bangalore, 21 May 2008

(2010AB1141) Pramod Kumar Varanasi, CVRDE, Chennai, 19 May 2010

(2008AB1200) Rambabu Doudu, CVRDE, Chennai, 21 May 2008

(2010AB1088) Meenakshi Durga, DEAL, Dehradun, 19 May 2010

(2010AB1147) N Lavanya, DEBEL, Bangalore, 19 May 2010

(2008AB1536) Oza Manan Yogeshbhai, DIPAS, Delhi, 03 Dec 2008

(2010AB1072) Rahul Srivastava, DL, Jodhpur, 19 May 2010

(2007AB1299) Mahaveer Singh, DL, Jodhpur, 14 Nov 2007

(2010AB1106) Shashitosh Kumar, DLRL, Hyderabad, 19 May 2010

(2008AB1297) VVSRN Raju, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008

(2008AB1300) B Naresh Kumar, DLRL Hyderabad, 21 May 2008

(2010AB1166) Ganga Bhavani S, GTRE, Bangalore, 19 May 2010

(2008AB1211) Nagesha BK, GTRE, Bangalore, 21 May 2008

(2008AB1643) Sathish Kumar D, GTRE, Bangalore, 24 Sep 2008

(2008AB1097) Lalit Mohan, HQ ATPV, Delhi, 21 May 2008

(2010AB1029) Neha Aggarwal, IRDE, Dehradun, 19 May 2010

(2010AB1028) Shubhi Saini, ISSA, Delhi, 19 May 2010

(2008AB1125) Seema, ISSA, Delhi, 21 May 2008

(2007AB1222) Manoj Kumar Meher, ITR, Balasore, 01 Feb 2007

(2010AB1038) Om Prakash, LRDE, Bangalore, 19 May 2010

(2010AB1085) Sree Lakshmi G, LRDE, Bangalore, 19 May 2010

(2010AB1094) Thokala Latha, LRDE, Bangalore, 19 May 2010

(2010AB1070) Sonu Grace Cherian, LRDE, Bangalore, 19 May 2010

(2007AB1038) Rakesh Kumar, LRDE, Bangalore, 14 Nov 2007

(2008AB1172) Devaraj V, LRDE, Bangalore, 21 May 2008

(2010AB1093) Aparna A, NPOL, Kochi, 19 May 2010

(2008AB1214) Vivek AK, NPOL, Kochi, 21 May 2008

(2008AB1612) Praveen Kumar Vodnala, NSTL, Vishakhapatnam, 03 Dec 2008

(2010AB1097) Abhishek Aggarwal, RCI, Hyderabad, 19 May 2010

(2008AB1305) Madhu Sudan Rao Thota, RCI, Hyderabad, 21 May 2008

(2008AB1310) Rednam V Naveen Kumar, RCI, Hyderabad, 22 May 2008

(2007AB1128) P Shivanatham, RCI, Hyderabad, 23 May 2007

(2010AB1043) Siddheswar Kumar, SASE, Chandigarh, 19 May 2010

(2010AB1129) Prabhakar Rana, SASE, Manali, 19 May 2010

(2010AB1023) Ghanshayam Malviya, SFC, Jagdalpur, 19 May 2010

(2009AB1686) Chandan Kumar, SPIC, Delhi, 01 Dec 2009

(2007AB1176) Yashoda Parmar, SSPL, Delhi, 23 May 2007

(2009AB1582) Shweta Gupta, TBRL, Chandigarh, 01 Dec 2009

(2010AB1080) Patil Ravi Manik, VRDE, Ahmednagar, 19 May 2010

VP PANDE
Associate Dir

NATIONAL CADET CORPS

No. 747, the 13th December 2010—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University :—

Name of the Vice Chancellor, Name of the Directorate, Name of the University and Date of appointment as Vice Chancellor

Dr Govind Prasad Mishra, Vice Chancellor, MP&CG, New Veterinary University College Veterinary Campus, Jabalpur (MP), 23 Nov 2009

Dr SC Sharma, Vice Chancellor, Kar & Goa, Tumkur University, Tumkur, 04 May 2009

Prof Mohd Iqbal Ali, Vice Chancellor, AP, Satavahana University, Karimnagar, 28 Jul 2008

Dr Navin Mathur, Vice Chancellor, Rajasthan, Jai Narain Vyas University, Jodhpur, 28 Nov 2009

Dr A Jayakrishnan, Vice Chancellor, K&L, University of Kerala, Trivandrum, Kerala, 15 Dec 2008

Dr (Mrs) K Meena, Vice Chancellor, TN P&AN, Bharathidasan University Trichy, Tamil Nadu, 16 Jul 2010

Dr TC Shivashankara Murthy, Vice Chancellor, K&G, Mangalore University, Mangalagangothri, Karnataka, 03 Mar 2010

JAG VERMA
Brig
Dy Dir Gen (MS)

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

No. 748, the 14th December 2010—The President is pleased to confirmed the under mentioned officers were

granted Permanent Commission, wef the date stated against their names :—

Fg Offr Ankit Sood (29873), Mayank Panwar (29874), Samir Abrol (29875), Manish Kumar Chahal (29876), P Shyam Kumar (29877), Parvinder Singh (29878), Samir Madhwal (29879), Rohan Atul Atre (29880), Lagnajeet Nayak (29881), Manish Joshi (29882), Aniket Kumar (29883), Gourav Pathania (29884), Sahil Kapoor (29885), John Eapen (29886), Nirmal Kumar (29887), Umesh Bahadur Singh (29888), Kunal Kalra (29889), Jigmet Norbu (29890), Rupesh Kumar Sharma (29891), Rohan Chacko Jacob (29892), Akhil Bhardwaj (29893), Vikas Kumar (29894), Arumuganathan Pichipoo Raja (29895), Aditya Sai Kumar Mothay (29896), Gopi Krishna (29897), Praneeth Kumar Vasireddy (29898), Deepak Dhankhar (29899), Rajneesh Chandra Uniyal (29900), Sandeep Bhaskar (29901), S Sakthi Vigneshwar (29902), Atul Suri (29903), Ashwin Prasad (29904), Anubhav Vyas (29905), Arpit Shukla (29906), Anubhav Mahendra (29907), Arjun K Patel (29908), Viswanathan Naga Subramaniam (29909), Ankush Tomar (29910), Rijul Sharma (29911), Anuj Gupta (29912), C Kartikeya Rao (29913), Mohit Gupta (29914), Sambit Patnaik (29915), Sagar Sharma (29916), Rohit Kumar Chauhan (29918), Tigmanshu Dogra (29919), Keshov Kumar (29920), M Jeyakrishnan (29921), Raveesh Kumar (29923), Abhijeet Singh (29924), Rohan Kishor Kulkarni (29925), Ashwini Kumar (29926), Rahul Nainwal (29927), Rajendra Kumar Godara (29928), Himmatdal Singh Bharaj (29929), Himadri Biswas (29930), Nishanth Rai (29931), Virat Bhola (29932), Pawan Kumar Sharma (29934), Saurabh (29935), Sanjay Verma (29936), Vivek Mohan (29937), Yogesh Kumar (29938), Binoy Singh Laishram (29939), Kapil Dev (29940), Nishit Mishra (29941), Pradhyu Zachariah Pothan (29942), Ashray Negi (29943), Ammar Haider Naqvi (29944), Ashutosh Khanduri (29945), Mohit Ola (29947), Kumar Saurabh Vishal (29948), Parikshit Nandlal Joshi (29949), Amit Gaur (29951), Vijaypal Rawat (29952), Sanjiv Tulshiram Badgujar (29953), Ujjwal Kumar Mishra (29955), Dipankar Das (29957), Rakshit Madan (29958), Mehtab Sond (29959), Ashish Rawat (29961)—wef 21 Jun 2008.

VM MARDIKAR
Wg Cdr

ARMY BRANCH

No. 749, dated 14 December 2010—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Subs Maj Gen

(IC-31167) Brig B Chakrabarty, AAD, 24 July 2009 with seniority from 06 October 2007 without effect on pay and pension.

IC No., Rank, Name, Arms and Date of Sub Maj Gen

(IC-39812) Brig Girish Kumar, Engrs, 08 Sep 2009

(IC-39845) Brig Ak Sinha, Engrs, 01 Sep 2009

(IC-40285) Brig RN Thakur, Engrs, 01 Sep 2009

To be Sub Brg

IC No. Rank, Name, Arm and Date of Subs Rank

(SL-03152) Col Sukhvinder Singh, SL(RO), 01 Oct 2009

RB Asthana

Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 750, dated 14 December 2010—The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Col to be Brig

Col SK Roy (DR-10369Y), 26 Feb 2010, with notional seniority from 06 Feb 2010 without effect on pay & allowances)

Col AK Pal (DR-10360K), 08 Feb 2010

Col NK Sahoo (DR-10339F), 19 Mar 2010

Col NK Singla (DR-10376P), 26 Apr 2010, with notional seniority from 21 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

MAHESH CHANDER

Maj Gen

Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 751, dated 15 December 2010—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-41308H) Lt Col KV Ramana, Arty, 18 Jun 2009

(IC-41386A) Lt Col Narendra Kumar, Inf, 18 Jun 2009

(IC-41897K) Lt Col YK Chahar, Inf, 09 Jun 2010

(IC-41901F) Lt Col KN Prasad, Arty, 09 Jun 2010

(IC-41917M) Lt Col Kanvaljit Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-41922X) Lt Col Arjun Singh, Arty, 09 Jun 2010

(IC-41938H) Lt Col Suresh Chand, ASC, 09 Jun 2010

(IC-41941H).Lt Col SK Sharma, Sigs, 09 Jun 2010

(IC-41992W) Lt Col RPS Gill, Arty, 09 Jun 2010

(IC-42066) Lt Col DC Sharma, Int, 09 Jun 2010

(IC-42069L) Lt Col Satbir Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42073N) Lt Col Bhupendra Singh, Int, 09 Jun 2010

(IC-42077K) Lt Col L Kushwaha, AAD, 09 Jun 2010

(IC-42078M) Lt Col AK Mathur, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42084A) Lt Col MC Kumar, Sigs, 09 Jun 2010

(IC-42096P) Lt Col LS Matharu, ASC, 09 Jun 2010

(IC-42119L) Lt Col R Majumder, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42121H) Lt Col Naunihal Singh, AOC, 09 Jun 2010

(IC-42135H) Lt Col LK Tiwari, Int, 09 Jun 2010

(IC-42154N) Lt Col Rajesh Khosla, Arty, 09 Jun 2010

(IC-42159M) Lt Col AK Chauhan AC, 09 Jun 2010

(IC-42177P) Lt Col MK Sharma, Sigs, 09 Jun 2010

(IC-42184L) Lt Col Raghubir Singh, AAD, 09 Jun 2010

(IC-42197H) Lt Col Rajinder Singh, AC, 09 Jun 2010

(IC-42198L) Lt Col AK Pandey, Engrs, 09 Jun 2010

(IC-42208K) Lt Col Dharamvir Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42209M) Lt Col YPS Grewal, AC, 09 Jun 2010

(IC-42234L) Lt Col Alok Pande, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42262X) Lt Col SK Misra, AEC, 09 Jun 2010

(IC-42265L) Lt Col PK Saxena, AEC, 09 Jun 2010

(IC-44007K) Lt Col AS Rao, EME, 14 Jun 2010

(IC-41627P) Lt Col Vaj Singh, Engrs, 17 Dec 2009

(IC-41981K) Lt Col PB Choudhuri, Arty, 09 Jun 2010

(SL-3099M) Lt Col PS Shekhawat, SL QM, 20 Jul 2010

(SL-3308Y) Lt Col PC Vashishtha, SL AEC, 20 Jul 2010

(IC-41953X) Lt Col LS Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-41954A) Lt Col Lalit Belwal, Arty, 09 Jun 2010

(IC-42061Y) Lt Col BK Das, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42164X) Lt Col JK Chhetri, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42193M) Lt Col Rajeev D Nair, Engrs, 09 Jun 2010

(IC-42267W) Lt Col MC Joshi, AEC, 09 Jun 2010

(IC-45180A) Lt Col V Mohan, Jag Dept, 25 Apr 2010

(IC-45266Y) Lt Col Sanjoy Sen, Arty, 25 Apr 2010

(SL-03164F) Lt Col JP Yadav, SL RO, 20 Jul 2010

(SL-03307W) Lt Col Venugopalan Nair P, AEC, 20 Jul 2010

(IC-40267X) Lt Col VK Pardeshi Engrs, 23 Dec 2005

Maj To be Subs Lt Col (Time Scale)

(IC-32371W) Lt Col Kuldip Singh, Inf, 03 Nov 1992

TK DAS
Dy Dir MS-8A

No. 752, dated 15th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name & Arms

(IC-58937) Satish Kumar, EME

(IC-58938) Vikas Pandey, EME

(IC-58939) Sunil Yadav, AAD

(IC-58940) Sachin Kalia, EME

(IC-58942) Umesh Kumar Mehta, EME

(IC-58943) Padir Vivek Shankarrao, Engrs

(IC-58944) Harpreet Singh, Engrs

(IC-58945) Gavhane Sachin Suryakant, Engrs

(IC-58946) Rajeev Kumar Bakshi, Engrs

(IC-58948) Charanjit Singh, EME

(IC-58949) Shashi Kumar Nair, EME

(IC-58950) Sanjeev Kumar, EME

(IC-58951) Vikram Mahajan, EME

(IC-58952) Mayank Goel, EME

(IC-58953) Maninder Singh Gill, Sigs

(IC-58955) Saurabh Dubey, Sigs

(IC-58956) Sunil Sharma, Sigs

(IC-58957) Arun Kumar, Sigs

(IC-58958) Miranda Prabhakar Bryan, Engrs

(IC-58959) Santosh Prasad, Sigs

(IC-58960) Parminder Singh Bal, Engrs

(IC-58961) Ravindra Pratap Singh, EME

(IC-58962) Gurvinder Singh Gill, Engrs

(IC-58963) R Sahayaraj, EME

(IC-58964) Gopendra, Sigs

(IC-58965) Rohit Arora, EME

(IC-58966) Naveen Sawhney, Engrs

(IC-58968) Ramendra Singh Jhinkwan, Engrs

(IC-58969) Nishant Solanki, Sigs

(IC-58970) Rakesh Zutshi, AAD

(IC-58972) Gaikwad Vivek Uttamro, AAD

(IC-58973) Vijay Maurya, EME

(IC-58974) Nitin Yadav, AAD

(IC-58975) Vineet Sharma, EME

(IC-58976) Rahul Tayal, Sigs

(IC-58977) Sharma Vishal Om Prakash, Engrs

(IC-58978) S Pradeep Kumar, Sigs

(IC-58979) Sameer Bodas, Sigs

(IC-58980) Kirti Pratap Singh, Sigs

(IC-58981) Gummalla Suri Babu, EME

(IC-58983) Karmendra Kumar, AAD

(IC-58984) Yaladalu Keshavananda Chandan, Engrs

(IC-58985) Rahul Devrani, Sigs

(IC-58986) Shankar Singh Gautam, Sigs

(IC-58987) Munish Kural, Sigs

(IC-58989) Vijay Prakash Chaturvedi, Sigs

(IC-58991) Devender Singh, Sigs

(IC-58992) Jiju Johnson Thomas, EME

(IC-58993) Parminder Singh, Engrs

(IC-58994) Harinder Pal Singh Sidhu, EME

(IC-58995) Dine Soibam, Engrs

(IC-58996) Sajjan Singh, EME

(IC-58997) Ningthoujam Birendra Singh, Engrs

(IC-58998) Rajinder Singh Sidhu, EME

(IC-58999) Rajeev Sanan, EME

(IC-59001) Rakesh Verma, Sigs

(IC-59002) Viswanathan R, EME

(IC-59003) Deshpande Amit Arvind, Engrs

(IC-59004) A Joji Paul, Engrs

(IC-59005) Yogesh Bhardwaj, Sigs

(IC-59006) Belose Sachin Nathuram, Sigs

(IC-59007) Saurabh Sachar, Engrs

(IC-59008) Amit Lakhnapal, EME

(IC-59009) Rohit Tugnait, Sigs

(IC-59010) Umesh Marwaha, EME
 (IC-59011) Roy Abir Tapan Kumar, EME
 (IC-59012) Ashwani Tyagi, Engrs
 (IC-59013) Sudeep Kumar Mishra, Engrs
 (IC-59014) Deshpande Anil Anantrao, EME
 (IC-59015) S Velmurugan, Sigs
 (IC-59017) Khedekar Yogesh Govindrao, EME
 (IC-59018) Mritunjay Kumar, EME
 (IC-59019) Kulvinder Singh, Engrs
 (IC-59022) Subhendu Bose, AAD
 (IC-59023) Ashutosh Kumar Singh, EME
 (IC-59024) Rohit Nandan Prasad, Sigs
 (IC-59025) Gurmeet Singh, EME
 (IC-59026) Bhupinder Singh Mann, Sigs
 (IC-59028) Dilraj Singh, Engrs
 (IC-59029) Chandra Vanu Das, EME
 (IC-59032) Mahesh Kumar K S, Engrs
 (IC-59034) Ashok Kumar Shripalhad, AAD
 (IC-59036) Amit Chander, Engrs
 (IC-59037) Shreejit S, EME
 (IC-59038) Tyagi Alok Kumar, AAD
 (IC-59039) Manoj Kumar Yadav, EME
 (IC-59040) Siva Subramaniam, Engrs
 (IC-59043) S R Suresh Kannan, EME
 (IC-59044) Butala Devendra Manohar, EME
 (IC-59045) Amit Kumar, EME
 (IC-59047) Arvind Kumar, EME
 (IC-59049) Premanand K, Engrs
 (IC-59050) Rajeev Sharma, EME
 (IC-59051) Talewar Samir Jai Kumar, Engrs
 (IC-59052) Harpreet Singh, Sigs
 (IC-59055) Bharat Bhushan Kapoor, Sigs

—12 Jun 2010

PK SHASTRI
 Maj
 AMS-8B

No. 753, dated 15th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name & Arms

(IC-56929) Raman Gupta, AC
 (IC-56934) Anup Kumar Tiwary, AC
 (IC-56935) Amit Oberoi, Sigs
 (IC-56938) Sarit Prakash, AC
 (IC-56939) Mohite Ketan Arun, Inf
 (IC-56940) Lokesh Kandpal, Inf
 (IC-56941) Rohit Harimohan, Arty
 (IC-56943) Kamaljeet Singh Multani, Inf
 (IC-56944) Amit Yadav, Mech Inf
 (IC-56945) Aabhas Avasthi, Inf
 (IC-56947) Atul Watts, ASC
 (IC-56948) Sarvinder Singh, Inf
 (IC-56949) Vishal Ranjan, Inf
 (IC-56950) Dhiraj Ramanand, Arty
 (IC-56951) Santosh Kumar Rana, Sigs
 (IC-56954) Nipoon Sood, EME
 (IC-56956) Dushyant Jolly, Inf
 (IC-56957) Ajit Singh, AVN
 (IC-56958) Atul Bhatia, Inf
 (IC-56960) Yogpal Singh, ASC
 (IC-56961) Santosh Atmaram Naugan, Mech Inf
 (IC-56962) Aakash Bhardwaj, Sigs
 (IC-56964) Rohit Kaundinya, AVN
 (IC-56966) Rahul Oberoi, Engrs
 (IC-56969) Neeraj Singh, ASC
 (IC-56970) Rakesh Kumar, Arty
 (IC-56971) Sanjay Kumar Thakur, ASC
 (IC-56972) Anil Kumar Joshi, Inf
 (IC-56974) A Rajesh, Inf
 (IC-56975) Govindraj Sharma, Inf
 (IC-56976) Harmish Desai, Inf
 (IC-56977) Ramit Kapoor, AVN
 (IC-56978) Rohit Sagar, Engrs

(IC-56979) Yallanagouda D Mallur, Inf
(IC-56981) Bhanu Pratap Sharma, Arty
(IC-56982) Rakesh Kumar, Arty
(IC-56983) Kiran Narayan Kulkarni, Int
(IC-56984) Dilbagh Singh, AAD
(IC-56985) Ranju Kuriance, Arty
(IC-56986) Chiter Sain, Inf
(IC-56987) Sanjoy Kumar Bhadra, ASC
(IC-56988) Ashish Pundir, EME
(IC-56989) Rajesh Bisht, AOC
(IC-56990) Sumit Sharma, Int
(IC-56991) Aashish Dikshit, Inf
(IC-56992) Anshuman Narang, Arty
(IC-56993) Ajay Singh Chauhan, Inf
(IC-56994) Vipin Sharma, Mech Inf
(IC-56997) Navrattan Sibia, Arty
(IC-56998) K L Rahul, Engrs
(IC-56999) Akshay Kapoor, Arty
(IC-57002) Deep Chandra Sati, Inf
(IC-57003) Aditya Harshey, Engrs
(IC-57004) Ajay Pal Singh, Arty
(IC-57005) Anurag Rathore, Sigs
(IC-57006) Sujit Upadhyay, EME
(IC-57007) Puneet Prabhank Bhalla, EME
(IC-57008) Mandeep Singh, Inf
(IC-57009) Sandeep Singh, EME
(IC-57010) Partha Pratim Pal, Arty
(IC-57011) Gurjyot Singh Shergill, EME
(IC-57012) Ravi Ramani Iyer, Engrs
(IC-57013) Vivek Tripathi, Arty
(IC-57014) Himanshu Hatkar, Inf
(IC-57015) Vivek Puri, Inf
(IC-57016) Avin Uthaiya, AC
(IC-57017) Kapil Agarwal, AVN
(IC-57019) V Suresh Kallai, ASC
(IC-57020) Gautam Kapoor, Arty
(IC-57021) Sachin Annarao Nimbalkar, Inf
(IC-57022) Alok Shankar, Sigs
(IC-57023) Ajay Kumar Singh, Engrs

(IC-57024) Satish Kumar Shrivastava, AAD
(IC-57025) Mattackal Dennis Mathew Thomas, Engrs
(IC-57026) Udit Joshi, EME
(IC-57027) Sanjeev Singh, ASC
(IC-57028) Sandeep Walia, Arty
(IC-57029) Tribhuvan Swapnil Vijayanand, Inf
(IC-57030) Ramesh Kumar Malik, Sigs
(IC-57031) Sushil Kumar Pandey, Inf
(IC-57032) Bobby RP Singh, ASC
(IC-57033) Bawa Pradeep Singh Thakur, Inf
(IC-57034) Arjun Uppal, AC
(IC-57035) Sandhan Mishra, Arty
(IC-57036) Sanjeev Tyagi, EME
(IC-57037) Ajay Dogra, ASC
(IC-57038) Deepak Mohan, Inf
(IC-57040) K Varun Singh Tanwar, Arty
(IC-57042) Anirban Chatterjee, AOC
(IC-57043) Ajay Verma, Ad Arty
(IC-57045) VL Murali Mohan, Arty
(IC-57046) Gurtej Singh Grewal, Arty
(IC-57047) Monoj Tripathi, Avn
(IC-57048) Monoj Kumar Patel, Inf
(IC-57049) Revety Bhandari, Inf
(IC-57050) Rakesh Sharma, Inf
(IC-57051) Ajay Thakur, AOC
(IC-57052) Abhishek Sharma, Mech Inf
(IC-57053) Rane Umesh Balkrishna, Engrs
(IC-57054) Manav Sabharwal, Arty
(IC-57055) Vikram Magotra, Sigs
(IC-57056) Nene Mandar Suhas, Engrs
(IC-57057) Peeush Kumar, Avn
(IC-57059) Prashant Joshi, AC
(IC-57060) Rakesh Kumar, AOC
(IC-57061) Jai Parkash Chahal, EME
(IC-57062) Imtiaz Ahmed Khan, Arty
(IC-57063) Ashwani Sinha, Inf
(IC-57064) R Jayadeep, Sigs
(IC-57065) V Shankar, Int
(IC-57066) Sunil Nair, Engrs

(IC-57067) Aditya Srivastava, Inf	(IC-57119) Subhash Mahato, Arty
(IC-57068) Vinay Siddineni, Arty	(IC-57120) Kulkarni Ninad Ramesh, Inf
(IC-57069) Premanku Ghosh, Inf	(IC-57121) Sudhanshu Dube, AC
(IC-57070) Ankush Thakur, Mech Inf	(IC-57122) Bhanupreet Singh Saini, Sigs
(IC-57071) MD Gopi Krishnan, Engrs	(IC-57123) Anil Kumar, EME
(IC-57072) Sanjeev Kumar Chowdhary, Sigs	(IC-57124) Rajesh Radhakrishnan, Inf
(IC-57074) Uttam Chand, EME	(IC-57125) Ram Asarey Patel, Int
(IC-57075) Vivek Ahlawat, Arty	(IC-57127) Harmeek Singh Walia, ASC
(IC-57078) Guru Prasad R, Inf	(IC-57128) L Shyam Kumar, Arty
(IC-57080) Manjeet Singh Pathania, Inf	(IC-57129) Alok Singh Rawat, Inf
(IC-57081) Jagjyot Singh Dhody, Inf	(IC-57130) Vipul Singh Rajput, Inf
(IC-57082) Sunil Kumar Pandey, ASC	(IC-57131) Salil MP, Inf
(IC-57083) Rajesh Kumar, AC	(IC-57132) Peeyush Kumar Vyas, Inf
(IC-57084) Suresh Babu AB, EME	(IC-57133) Pawan Pal Singh, Inf
(IC-57086) Rahul Josan, Inf	(IC-57134) Gagan Arora, AVN
(IC-57087) Ripoon Bhalla, Arty	(IC-57135) Rajat Bisht, Arty
(IC-57088) Jayaram Pradigapati, Engrs	(IC-57136) Nirinder Kumar, ASC
(IC-57089) Dhiraj Minotra, Engrs	(IC-57137) Vikas Gupta, Engrs
(IC-57090) Jitendra Singh, AC	(IC-57138) Rohitash Sharma, Inf
(IC-57091) Ram Dass Verma, Inf	(IC-57139) Rohit Kumar, Engrs
(IC-57092) Karamjit Singh, Mech Inf	(IC-57140) Jeet Bahadur Gurung, AOC
(IC-57094) Sandeep Pratap, Inf	(IC-57142) Raman Preet Singh, Inf
(IC-57095) Girish Kumar, Engrs	(IC-57143) Rakesh Kumar, Arty
(IC-57097) Vishal Saxena, Arty	(IC-57144) GS Saikumar, EME
(IC-57098) Vishal Dev, Mech Inf	(IC-57145) Dattatray Bansidh Tingre, Inf
(IC-57100) Himanshu Bisht, Arty	(IC-57146) Anirudh Chauhan, Inf
(IC-57101) Sumeshwar Singh, Mech Inf	(IC-57147) Soumen Kumar Badu, AC
(IC-57102) Krishan Anup, EME	(IC-57148) Shashank Shekhar, Inf
(IC-57103) Dhanraj Basnet, Engrs	(IC-57150) Patwardhan Sanjeev Parshuram, Inf
(IC-57104) Dinesh Singh Parmar, Inf	(IC-57151) Surendra Singh, Arty
(IC-57108) Kaustuv Chattopadhyaya, AC	(IC-57153) Jagbhan Singh, EME
(IC-57109) Surabh Pandey, Inf	(IC-57154) GC Vinod, Inf
(IC-57110) Akash Mishra, Arty	(IC-57155) Surinder Kumar, ASC
(IC-57112) Ivaturi Raman Rao, AOC	(IC-57157) Sunder Bisht, Inf
(IC-57113) Ravi Koul, Inf	(IC-57159) Pankaj Kumar Singh, Arty
(IC-57114) Navneet Kumar, Arty	(IC-57160) Paramjit Singh, AOC
(IC-57115) Manindra Kumar Singh, EME	(IC-57161) Gurdeep Singh, AVN
(IC-57116) Anil Kumar G, ASC	(IC-57162) Saurabh K Sharma, Arty
(IC-57117) Rajeev Kumar Mishra, Inf	(IC-57163) Anirban Saha, Inf

(IC-57164) Aditya Verma, Arty	(IC-57210) Adhish Dhyani, Sigs
(IC-57165) Sagar Singh Bhaisora, AOC	(IC-57211) Sachit Suri, Inf
(IC-57166) Parkar Rahul Diwakar, AAD	(IC-57212) Rajinder Pal Singh, AVN
(IC-57167) Shiva Kant Shukla, Inf	(IC-57213) Satinder Dahiya, Inf
(IC-57169) Ashish Kumar Pande, Inf	(IC-57214) Dogra Bikramjeet Singh B, Inf
(IC-57170) Sachit Mahindroo, ASC	(IC-57215) Brij Pal Singh, ASC
(IC-57171) Prashant Kumar Oberoi, Engrs	(IC-57216) Pawan Rawat, AOC
(IC-57173) Kanwar Shailenrra Thakur, AVN	(IC-57217) Sukhdev Singh Chaudhary, AAD
(IC-57174) Jagminder Singh Gill, AC	(IC-57218) Ashok Kumar Yadav, ASC
(IC-57175) Animesh Kumar, Sigs	(IC-57220) Sorokhaibam Dinesh Singh, Mech Inf
(IC-57176) Upender Pal Singh, Inf	(IC-57222) Menezes Ajay Bosco Joseoh Frankie, Arty
(IC-57177) Yogendra Chaudhary, Arty	(IC-57223) Abhishek Ranjan, Engrs
(IC-57178) Mohammad Imtiaz Khan, Inf	(IC-57225) Rajesh Kumar Naithani, Inf
(IC-57179) P Kumar, Mech Inf	(IC-57226) Smarajit Ganguly, Inf
(IC-57181) Deepak Induraj, Arty	(IC-57227) Rizwan UI Rafia Khan, Inf
(IC-57182) Ravinder Pal Singh, EME	(IC-57229) Sonu Taluja, Inf
(IC-57185) Navtej Singh Grewal, Arty	(IC-57231) Puneet Gupta, AOC
(IC-57186) Rupesh Awasthi, EME	(IC-57232) Sunil Bhatt, ASC
(IC-57187) Sanjeev Chopra, Inf	(IC-57233) Kanwal Preet Singh Rekhi, Inf
(IC-57188) Mukesh Singh Bist, Inf	(IC-57234) Vikramjeet Singh Virk, Inf
(IC-57189) Vijay Kumar Singhal, AC	(IC-57237) Vivek Bist, Sigs
(IC-57190) Shree Kumar Nair, Sigs	(IC-57238) Ajay Rawat, EME
(IC-57191) Paramjit Singh, Arty	(IC-57239) Ashish Kumar, Arty
(IC-57192) Jatinder Singh Gandhi, Inf	(IC-57240) Anurao Trivedi, AOC
(IC-57193) Rohit Yadav, Inf	(IC-57241) Vinod Kumar, Inf
(IC-57194) Amandeep Saggat, Engrs	(IC-57242) AV Kiren Kumar, Arty
(IC-57195) Jiju SG, AAD	(IC-57243) Ranjiv Singh, Sigs
(IC-57196) Dharamvir Singh, Inf	(IC-57244) Prakhar Sinha, Arty
(IC-57197) Pankaj Kumar Sinha, EME	(IC-57245) K Salil Kumar, Inf
(IC-57198) Nitin Bhatia, AVN	(IC-57246) Nitin Chauhan, Mech Inf
(IC-57199) Thomas Oommen, ASC	(IC-57247) Vikas Singh, AC
(IC-57200) Anadi Atreya, Inf	(IC-57248) Umesh A Parab, Inf
(IC-57201) Venkatesh G Kulkarni, Arty	(IC-57249) Akhil Mehta, Engrs
(IC-57202) Siddharth Malik, EME	(IC-57250) Bhupesh Kumar Srivastava, Sigs
(IC-57204) Siddharth Chib, AD Arty	(IC-57251) Chinmay Kumar Nayak, Arty
(IC-57206) Sandeep Sharma, AOC	(IC-57253) Jagdish Chandra Pandey, Arty
(IC-57207) Ravinder Singh Bhandari, Engrs	(IC-57255) Kumar Ankur, Inf
(IC-57208) Rajesh Kumar Awasthi, Arty	(IC-57256) Sana Venkata Sudheer, AAD
(IC-57209) Jitender Kumar, Int	(IC-57257) Rajeev Joshi, Arty

(IC-57258) Singh Rajkumar Hawaldar Singh, EME
 (IC-57262) Vishal Sachdev, EME
 (IC-57263) Deepak Jindal, AOC
 (IC-57264) Sanjay Kumar Ray, Inf
 (IC-57265) Vikram Jit, ASC
 (IC-57266) Rishi Raj Singh, Inf
 (IC-57267) Amit Kumar Deoli, Inf
 (IC-57268) Mukul Goel, Sigs
 (IC-57269) Upendra Nath Pandey, ASC
 (IC-57270) Sandeep Toor, AOC
 (IC-57271) Ravindra Singh Rawat, Engrs
 (IC-57272) Preythush Pillai, Inf
 (IC-57273) Patange Sachin Dattatray, Arty
 (IC-57274) Gunjan Chowdhary, Arty
 (IC-57275) Vikas Goel, Engrs
 (IC-57276) Himanshu Bohra, Inf
 (IC-57278) Shivanand B Sutagatti, Arty
 (IC-57279) Satish Kumar Malik, Sigs
 (IC-57280) Pradeep G, ASC
 (IC-57281) Vincent Aloysius, AOC
 (IC-57282) Jaswinder Singh, Inf
 (IC-57283) Alok Singh Dharamraj, EME
 (IC-57284) Ajay Dharni, AOC
 (IC-57286) Jitendra Kumar Bisht, Inf
 (IC-57287) Laljeet Prasad, Inf
 (IC-57288) Priyadarshi Amit, Inf
 (IC-57289) Shailendra Puri, Inf
 (IC-57291) Shinde Girish Bapurao, Inf
 (IC-57292) Bhuwan Khare, EME
 (IC-57293) Bikram Ajit Singh, AAD
 (IC-57295) Vikram Prasanna, Arty
 (IC-57296) Vijay Pundir, Sigs
 (IC-57297) Rajneesh Sharma, Int
 (IC-57298) Pijush De, Arty
 (IC-57299) Avik Chatterjee, Inf
 (IC-57301) Rupesh Pradhan, Engrs
 (IC-57302) B L Krishna Kishore, Inf
 (IC-57303) Anand Siddharth Koura, ASC
 (IC-57305) Saurabh Jacob, ASC
 (IC-57306) Vijay Gulia, EME

(IC-57307) Kanwaljit Singh, AC
 (IC-57308) Rajesh Katoch, Mech Inf
 (IC-57309) Vikas Chandna, Arty
 (IC-57310) Barve Abhijit Vidyadhar, Arty
 (IC-57313) Patil Sunil Amagonda, MF
 (IC-57315) Navneet Kumar Kaura, MF

—07 Jun 2010

IC No., Name, Arms/Services/Sub Lt Col wef
 (IC-54482) Devendra Narhari Kotnis, Inf, 08 Jun 2009
 (IC-55654) Vikram Chandel, Inf, 24 Apr 2010
 (IC-55678) G Kamesh, AOC, 24 Apr 2010
 (IC-55690) Gopal Singh Chundawat, Inf, 24 Apr 2010
 (IC-56612) Sameer Dhar, Inf, 07 Dec 2009
 (IC-56712) Nishit Ranjan, Arty, 07 Dec 2009
 (IC-56904) Pramod Negi, Engrs, 07 Dec 2009
 (IC-56995) Sumeet Abrol, Inf, 07 Jun 2010
 (IC-57073) Aditya Sahai, Inf, 07 Jun 2010
 (IC-57106) Vikas Singh Yadav, Sigs, 07 Jun 2010
 (IC-57252) Amit Kumar Mathur, EME, 07 Jun 2010
 (IC-58982) Pradeep Raj, Engrs, 12 Jun 2010
 (IC-59027) Akhilesh Singh, Sigs, 12 Jun 2010
 (IC-59035) Ashwini Bhardwaj, Sigs, 12 Jun 2010
 (SL-04377) Surendra Godhey, Engrs, 26 Apr 2010
 (SL-04441) Gangadharan M, EME, 26 Apr 2010

RAHUL SHARMA
 Lt Cpt
 AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 754, the 16th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col to be Col by selection (& equivalent)

(Mrs) M Kumar (MR-06301A), 08 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Apr 2009.

Lt Col to Colonel (Time Scale)

Achal Kumar, Lt Col (MR-5284Y), 10 Aug 2010

RN Rao, Lt Col (MR-6483Y), 18 Mar 2010

Wg Cdr to be Gp Capt by selection (& equivalent)

N Bhatnagar (MR-05546K)(18703)—31 Aug 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Jul 2009.

DK Joshi (MR-05658K)(19329)—19 Sep 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 20 Aug 2009.

Surg Capt (& Equivalent) to be
Surg Cmde (& Equivalent)

CC Varma (MR-04678L)(75288)—19 Oct 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Sep 2009.

AA Pawar (MR-04147N)(75256)—09 Nov 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 2009.

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 755, dated 16th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

SL No., Name & Arm

(SL-04753) Raju A, SL/Arch—05 Jul 2009

Capt to be Maj

IC No., Name, Arm & Subs Maj wef

(IC-63673), Kshitij Krishna Srivastava, Engrs, 13 Dec 2009

(IC-63798) Rohit Suri, Inf, 12 Jun 2010

(IC-63868) Saurabh Mangain, Mech, 12 Jun 2010

(IC-64098) Randeep Singh Slathia, AC, 12 Jun 2010

(IC-64128) Naveen Mehra, Inf, 12 Jun 2010

(IC-66041) Anuj Bindra, EME, 20 Apr 2008

(IC-68372) Deepak Ghalotra, Sigs, 13 Jun 2010

(IC-68390) Savant Vikram Ashok, Sigs, 13 Jun 2010

(IC-68406) Saswade Mahendra Mohan, EME, 13 Jun 2010

(IC-61375) Mainak Deb, Arty, 08 Dec 2007

(IC-62536) Manish Kumar Singh, Inf, 10 Dec 2008

RAHUL SHARMA

Lt Col

AMS 8-B

ARMY BRANCH

No. 756, dated 16th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

SL No., Name & Arm/Service

(SL-04988) Ram Pal Singh, AEE EM/IEM

(SL-04989) Bobade Avinash Narayan Rao, AEE B/R & ASW

(SL-04990) Sanjay Mishra, TOsT

(SL-04991) Gratus CV, RO

(SL-04992) Mathew KT, RO

(SL-04993) Virendra, RO

(SL-04995) Kanakaraj Kolavattath (KV), RO

(SL-04996) Parveen, RO

(SL-04997) JK Amul Raj, RO

(SL-04998) Debasish Dey, RO

(SL-04999) Narottam Sharma, RO

(SL-05001) Santosh Singh, RO

(SL-05002) Anmol Singh, RO

(SL-05003) Prakash Patil, RO

(SL-05004) Ranjan Kumar, RO

(SL-05005) Pandhare Sharad Prakash, RO

(SL-05006) Sojan Joseph, RO

(SL-05007) Girish SB, RO

—13 Aug 2010

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised date of Seniority for Promotion & Date of grant of Subs rank of Capt

(SS-43939) Sajjan Subramani, Engrs, 22 Mar 2008, SSC-32 (T), 22 Apr 2008, 22 Apr 2010

(SS-43942) Deepank Singh, Sigs, 22 Mar 2008, SSC-32 (T), 22 Apr 2008, 22 Apr 2010

(SS-43944) Harsimran Dip Singh, Engrs, 22 Mar 2008, SSC-32 (T), 22 Apr 2008, 22 Apr 2010

P K SHASTRI

Maj

AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 757, dated 20th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Dinesh Kumar Sahi (JC-176612A), 01 Aug 2010
 Sub Nirmal Singh (JC-498138W), 01 Aug 2010
 Sub Jay Krushna Nanda (JC-748755F), 01 Aug 2010
 Sub Kailash Nath Yadav (JC-214927W), 01 Aug 2010
 Sub S Soman Nair (JC-224780Y), 01 Aug 2010
 Sub Sohan Singh Verma (JC-169779F), 01 Aug 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Mahabir Prasad Pandey (JC-262751N), 01 Jun 2010

Nb Sub Ashok Kumar Maurya (JC-264068M), 01 Jul 2010

Nb Sub Sita Ram (JC-205416L), 01 Jul 2010

Nb Sub Bhagwan Singh Yadav (JC-841491X), 01 Aug 2010

Nb Sub Rajendra Singh (JC-841493H), 01 Aug 2010

Nb Sub Siddana Gouda Patill (JC-841497Y), 01 Aug 2010

Nb Sub Nathu Singh (JC-841499K), 01 Aug 2010

Nb Sub PM Harikuttan Pillai (JC-841500N), 01 Aug 2010

To be Subs Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Ajit Singh (JC-842003W), 01 Jun 2010

To be Nb Sub (GD)

Hav Madan Lal (No. 3975136K now JC-842793W), 01 Jul 2010*

Hav Madan Singh (No. 4061106F now JC-842797M), 01 Jul 2010*

Hav Hans Raj (No. 10465417Y now JC-842800F), 01 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Singh Yadav (No. 4171425W now JC-842804X), 02 Aug 2010**

Hav Amar Narain Sharma (No. 13674703N now JC-842806H), 01 Aug 2010**

Hav Diwani Chand (No. 4171255X now JC-842807L), 02 Aug 2010**

Hav Surjit Singh (No. 1260112K now JC-842810L), 01 Aug 2010**

Hav Laxmi Narain (No. 13613142N now JC-842811N), 02 Aug 2010**

Hav Raghubir Singh (No. 4060226P now JC-842812W), 01 Aug 2010**

Hav Moti Lal (No. 10181428W now JC-842813Y), 02 Aug 2010**

Hav K Chenthamara (No. 10165474F now JC-842814F), 02 Aug 2010**

Hav Krishna Prasad (No. 13951902N now JC-842815K), 02 Aug 2010**

Hav P Sivasankaran (No. 10289375M now JC-842816M), 01 Aug 2010**

Hav Ram Binod Singh (No. 10227097F now JC-842817P), 02 Aug 2010**

Hav Daya Ram Yadav (No. 10435820W now JC-842818X), 02 Aug 2010**

Hav Omkar Singh (No. 9082475F now JC-842820P), 05 Aug 2010**

Hav Mohan Azhuthalli Valappil (No. 14336180N now JC-842822A), 02 Aug 2010**

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Masih Das Kandir (No. 4250898W now JC-842842N), 01 Sep 2010***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 758, dated 20th December 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

RECORDS THE MIR

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Ram Phal (JC-419412K), 20 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Surender Singh Rawat (JC-419493P), 01 Sep 2010

Sub M Theivendran (JC-419615N), 06 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Jilu Singh Solanki (JC-419623M), 01 Sep 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Shyam Kumar Newar (JC-420710M), 24 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-420659X), 19 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vijay Kumar (JC-420784F), 23 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhdev Raj (JC-420398P), 06 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Man Singh (JC-420660M), 01 Sep 2010

Nb Sub Shinde Uttam Shamrao (JC-420696L), 01 Sep 2010

Nb Sub Ram Chander (JC-420702N), 01 Sep 2010

Nb Sub Sohan Singh (JC-420882F), 01 Sep 2010

Nb Sub Roshan Lal (JC-420726X), 01 Sep 2010

Nb Sub Sawai Singh (JC-420779W), 01 Sep 2010

Nb Sub Paplesh Kumar (JC-420755M), 01 Sep 2010

Nb Sub Raj Kumar (JC-420780L), 01 Sep 2010

Nb Sub Prem Singh (JC-420789A), 01 Sep 2010

Nb Sub Mohan Singh Rawat (JC-420685Y), 01 Sep 2010

Nb Sub Sudershan Singh (JC-420852K), 01 Sep 2010

Nb Sub M Selva (JC-420916K), 01 Sep 2010

Nb Sub Suresh Chand (JC-421054H), 01 Sep 2010

Nb Sub Mohan Singh (JC-420847Y), 01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amin Chand (JC-420335M), 21 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sohadev Gupta (JC-420402M), 21 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Makar Singh (JC-420437H), 21 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Megh Singh Rathore (JC-420572W), 02 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harish Chandra Singh (JC-420667W), 10 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramayan Pratap Singh (JC-420643M), 01 Sep 2010

Nb Sub Sambhu Bahadur Gurung (JC-420644P), 01 Sep 2010

Nb Sub Dharam Raj Sharma (JC-420795N), 01 Sep 2010

Nb Sub Rit Lal Vishwokarma (JC-420782W), 01 Sep 2010

Nb Sub Jitendra Singh (JC-420787P), 01 Sep 2010

Nb Sub Pramod Kumar (JC-420790P), 01 Sep 2010

Nb Sub Gagan Bahadur Rana (JC-420825A), 01 Sep 2010

To be Nb Sub

Hav Radhe Shyam Ram (No. 14914786P now JC-421644F), 30 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bagul Pankaj Subhashrao (No. 14918223M now JC-421645K), 01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Krishan Lal (No. 14915836F now JC-421646M), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramjee Kumar Sahu (No. 14915608Y now JC-421647P), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Tapas Kumar Bag (No. 14915609F now JC-421648X), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav M Pandari (No. 14915771Y now JC-421649A), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kushum Pal Singh Chauhan (No. 14915785Y now JC-421650P), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pankaj Kumar Maity (No. 14916277P now JC-421651X), 01 Sep 2010

Hav Ashok Kumar (No. 14916371Y now JC-421652A), 03 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pratap Singh (No. 14917039P now JC-421653H), 01 Sep 2010

Hav Her Kishan (No. 14915834W now JC-421654L), 01 Sep 2010

Hav Brijesh Kumar Singh (No. 14917219X now JC-421655N), 01 Sep 2010

Hav Ori Prasad (No. 14915243P now JC-421656W), 01 Sep 2010

Hav Mohinder Singh (No. 14915261X now JC-421657Y), 01 Sep 2010

Hav Kapur Singh (No. 14915360A now JC-421658F), 13 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Saleem Akiwat (No. 14914806X now JC-421659K), 06 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagmal Singh (No. 14915745X now JC-421660Y), 01 Sep 2010

Hav Mahendra Singh Mehta (No. 14915516M now JC-421661F), 01 Sep 2010

Hav Hebal Raj Mishra (No. 14916715M now JC-421662K), 01 Sep 2010

Hav Krishna Das V (No. 14918438L now JC-421663M), 01 Sep 2010

Hav (Clk) (SD) Lotake Arjun Muralidhar (No. 4072768K now JC-421664P), 01 Sep 2010

Hav (Clk) (SD) Bhupendra Singh (No. 14916424M now JC-421665X), 01 Sep 2010

To be Sub

Nb Sub (Clk) (SD) Ashok Kumar Sharma (JC-420616H), 01 Sep 2010

Nb Sub (Clk) (SD) P K Sasidharan (JC-420661P), 01 Sep 2010

ARMED CORPS RECORDS

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Opr) Jitendra Kumar Sing (No. 15461865H now JC-244397F), 01 Jun 2010

Dfr (Dvr/Opr) Thoudam Opendra Singh (No. 15461890P now JC-244569L), 01 Sep 2010

Dfr (Gnr/Opr) Jai Kumar (No. 1098690Y now JC-244565P), 22 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Devendra Singh Bhodriya (No. 1098866Y now JC-244564M), 22 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Subash (No. 108897W now JC-244571H), 03 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Davinder Singh (No. 1098995Y now JC-244573N), 03 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Rajesh Singh Tomar (No. 1089897X now JC-244584A), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Netai Kumar Ghosh (No. 15461709Y now JC-244587N), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Manas Kumar Mandal (No. 15461735A now JC-244588W), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Shivalingappa Dandin (No. 15461228M now JC-244612F), 17 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ram Lal Poshwal (No. 15461240W now JC-244613K), 26 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Suvash Choudhary (No. 15461261K now JC-244614M), 30 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ramvir Singh Rajput (No. 1098628M now JC-244620A), 01 Sep 2010

Dfr (Gnr/Opr) Kultar Singh (No. 1089712L now JC-244630K), 30 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Maha Singh (No. 15461682M now JC-244634A), 06 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Om Prakash Singh (No. 15461311K now JC-244635H), 26 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Gurpreet Singh (No. 15464335Y now JC-244637N), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Jiv Raj Singh Shekhawat (No. 1098916Y now JC-244638W), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Subash Kumar Singh (No. 1089845F now JC-244639Y), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Awadesh Verma (No. 1098764H now JC-244640N), 01 Sep 2010

Dfr (Opr/Gnr) M Karuppasami (No. 1098776X now JC-244641W), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Upendra Singh (No. 1099325K now JC-244642Y), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Opr) Vijendra Singh (No. 1099134P now JC-244643F), 02 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Arul Anandha Rajan C (No. 15462527X now JC-244656Y), 04 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Vijay Singh (No. 15463416M now JC-244657F), 04 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rakesh Kumar Shukla (No. 15463653W now JC-244658K), 04 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Prakash Gir Atri (No. 15463674M now JC-244644K), 01 Sep 2010

Dfr (Opr/Gnr) Roopan Singh (No. 15461957P now JC-244646P), 30 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Gurwinder Singh (No. 15462345K now JC-244572L), 22 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 759, dated 20th December 2010—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

Hav to be Nb Sub SKT

Bhola Nath Ghosh (No. 14613170W now JC-764678F), 02 Mar 2010/01 Mar 2010*

Jagesh Kumar (No. 14590092P now JC-765015H), 01 Jul 2010

Bansi Lal (No. 14613073Y now JC-765016L), 01 Jul 2010

Satyabrata Ghosh (No. 14613918M now JC-765017N), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech (Elect)

Satish Kumar Singh (No. 14623337H now JC-764707L), 19 Jul 2010/01 Apr 2010*

Pramod Kumar Tiwari (No. 14595871F now JC-765145L), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech A Veh

Surender Singh (No. 14621221N now JC-764797X), 29 Jul 2010/01 Mar 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

Ishwar Singh (No. 14623666Y now JC-764947H), 01 May 2010

Baljinder Singh Dhillon (No. 14621162M now JC-765044X), 01 Jul 2010

Brijendra Kumar Garg (No. 14621183H now JC-765045A), 01 Jul 2010

Shaju P (No. 14621435K now JC-765046H), 01 Jul 2010

V Thamizhanban (No. 14622839Y now JC-765125X), 02 Jul 2010/01 Jul 2010*

Rajesh Kumar (No. 14622889K now JC-765126A), 01 Jul 2010

Pratap Vikram Singh (No. 14622900X now JC-765127H), 01 Jul 2010

Shiv Ram Sawant (No. 14622959X now JC-765129N), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Awadesh Kumar (No. 14599344X now JC-764808Y), 18 Apr 2010/01 Mar 2010*

Purna Chandra Mahanta (No. 14610188F now JC-765034N), 01 Jul 2010

Babu Lal (No. 14610640L now JC-765036Y), 01 Jul 2010

Raj Kumar (No. 14611411M now JC-765079N), 03 Jul 2010/01 Jul 2010*

Iyappan T (No. 14612150W now JC-765080H), 01 Jul 2010

Naresh Pal (No. 14611432H now JC-765082N), 01 Jul 2010

Surendra Singh (No. 14611484Y now JC-765083W), 03 Jul 2010/01 Jul 2010*

Wanjol Anil Madhukar (No. 14622357K now JC-765088P), 01 Jul 2010

Sanjeev Kumar Tiwari (No. 14613320F now JC-765090M), 01 Jul 2010

CV Unni Krishnan (No. 14615178F now JC-765091P), 01 Jul 2010

Rupeshwar Prasad Shukla (No. 14619201F now JC-765099F), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub DW

Mahkar Singh (No. 14584713M now JC-764986F), 01 Jul 2010

Tulshi Singh (No. 14584722N now JC-764987K), 01 Jul 2010

Baleshwar Singh (No. 14584729X now JC-764988M), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech AVF (AF)

J Sankar (No. 14627776L now JC-765049W), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Mane Bala Saheb Shivaji (No. 14568901K now JC-765060P), 10 Jun 2010/06 Jun 2010*

Dilip Chandra Paul (No. 14570383N now JC-765064L), 01 Jul 2010

Govind Jee (No. 14581377A now JC-765067Y), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Khandekar Ninappaaba (No. 14568652W now JC-765062A), 08 Jun 2010/06 Jun 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Kailash Chandra (No. 14616169M now JC-765108X), 05 Jul 2010/01 Jul 2010*

Indrama Singh (No. 14618677F now JC-765118F), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Elect

Rupam Singh (No. 14591443L now JC-765146N), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Artzn Metallurgy

Anwar Ali (No. 14586529A now JC-765154M), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Chhote Lal (No. 14599182X now JC-764810W), 12 Jul 2010/01 Mar 2010*

P Jothi (No. 14611276K now JC-765038K), 01 Jul 2010

Siya Ram (No. 14611304L now JC-765039M), 01 Jul 2010

Birjvir Sharma (No. 14619153M now JC-765096N), 01 Jul 2010

Ram Gopal Gond (No. 14618969K now JC-765097W), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Tech (SA)

Jaibir Das (No. 14568742X now JC-764981H), 10 Jun 2010/01 Jun 2010*

Habibuzzaman (No. 14579985H now JC-764982L), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub DW

N Manickam (No. 14585042A now JC-764985Y), 01 Jul 2010

Sukhendra Sinha (No. 14582893F now JC-765055K), 11 Jun 2010/02 May 2010*

Azad Ahmad (No. 14584746X now JC-765056M), 01 Jul 2010

Girraj Singh (No. 14643550K now JC-765059A), 08 Jun 2010/08 Nov 2009*

Hav to be Nb Sub SKT

Desh Raj (No. 14613877N now JC-765007K), 01 Jul 2010

Yogeshwar Kant Yadav (No. 14613878W now JC-765008M), 02 Jul 2010/01 Jul 2010*

Suresh Kumar Ojha (No. 14613886P now JC-765009P), 01 Jul 2010

Anup Kumar Maity (No. 14613912L now JC-765012P), 01 Jul 2010

Satendra Nath Mandal (No. 14613916F now JC-765013X), 01 Jul 2010

KP Thomas (No. 14588648P now JC-765018W), 01 Jul 2010

Braham Dass (No. 14590649W now JC-765023F), 08 May 2010/01 May 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

Binu MT (No. 14635398M now JC-765051N), 08 Jun 2010/08 Nov 2009*

Manoj Kumar (No. 14621936K now JC-765119K), 01 Jul 2010

Rudra Datt (No. 14621941P now JC-765120Y), 01 Jul 2010

Karan Singh Rathore (No. 14623002L now JC-765130H),
01 Jul 2010

Santosh Kumar T (No. 14623139X now JC-765133W),
01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Machinist

Subhash Chand (No. 14582842N now JC-765053Y), 09 Jun
2010/01 Jun 2010*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Naresh Kumar Singh (No. 14568919A now JC-765061X),
10 Jun 2010/06 Jun 2010*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Arjun Prasad (No. 14569063M now JC-765063H), 10 Jun
2010/06 Jun 2010*

Rajbir Singh (No. 14569502M now JC-765070Y), 01 Jul
2010

Arokiya Dass M (No. 14569575Y now JC-765071F), 01 Jul
2010

Darul Husaain Barbhuiya (No. 14569602X now JC-
765071K), 01 Jul 2010

Bhagautee Prasad Pathak (No. 14570214M now JC-
765076A), 01 Jul 2010

Rakesh Kumar (No. 14570651M now JC-765077H), 01 Jul
2010

Hav to be Nb Sub Master Tech AVF (Avn)

Anthony Jeyasankar (No. 14626732F now JC-765078L),
24 Jun 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Radar

Harendra Mishra (No. 14577906K now JC-765101N), 01 Jul
2010

Parsuram Gond (No. 14572799K now JC-765160A), 03 Jul
2010/01 Jul 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Pan Singh Mahara (No. 14615361K now JC-765113H),
01 Jul 2010

Jaibir (No. 14618414H now JC-765117Y), 01 Jul 2010

Hav to be Nb Sub Artzn Metallurgy

Satyendra Bahadur Singh (No. 14583041Y now JC-
765153K), 06 Jul 2010/01 Jul 2010*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

AIR FORCE

No. 760, dated 21st December 2010—The President is
pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

F(N) BRANCH

Sqn Ldr to be Subs Wg Cdr

AA Kelkar (24256), Amitabh Sinha (24255), Paul Davis
(24252), Ritwick Ghosh (24253), Harjinder Dua (24254), Kunal
Kala (24246), Pavan Dharwal (24247), P Venugopal (24248),
RK Biswas (24249), P Singh (24250)—wef 21 Dec 2009

F(P) BRANCH

P Awasthi (23988), S Shiv (24034), K Kumar (24050),
R Prakash (24043), R Mishra (24012), S Bhandari (24010),
S Suraj (24037), N Kanwar (24030), JP Raju (24031),
NS Pannu (23996), A Dutta (23997), K Kaushal (23992),
V Gupta (23995), M Gangola (23981), GM Tripathi (23976),
S Naraynen (23977), R Jain (23978), T Gopinath (23973),
A Sood (24028), K Kumar (24024), JS Ahluwalia (24015),
A Dutta (24016), Prashant (24001), N Naidu (23986), R Mathur
(23987), DR Choudhary (23983), A Kukreti (24032), P Vats
(24019), M Rawat (24020), VR Nikkam (24014), RK Satpathy
(24044), S Saxena (24039), SKS Sathe (24041), Narsingh Sailani
(24003), A Sharma (24026), S Agrawal (24045), M Kothari
(24047), A Jaiswal (24021), S Prabhu (23990), V V Kale (24009),
KM Raghuraman (24038), S Sharma (24008), Jayashankar
Sreeram (23980), N Dasgupta (24006), R Aneja (23989),
N Garg (23982), P Banerjee (24002), B Pratap (24000),
S Singh (24011), SR Das (24040), A Deo (24017), SK Anand
(23991), RN Jha (24042), R Dobhal (24022), R Singh (23998),
RP Srivastava (24046), TN Manikandan (24027), BS Gill
(24007), JR Thiagarajan (24049)—wef 29 Jun 2009

ADM BRANCH

D Thakur (23979), wef 29 Jun 2009

LGS BRANCH

D Chakrabarti (24005), wef 29 Jun 2009

F(P) BRANCH

A Sondhi (22916), wef 25 Oct 2009

(With Notional Seniority wef 18 Jun 2007)

ADM BRANCH

Sanjay Verma (22591), wef 01 Jul 2008

SK Asthana (23216), wef 01 Apr 2009

LGS BRANCH

MS Rawat (23272), wef 01 Jul 2008

A Varghese (23827), wef 16 Dec 2008

AE(L) BRANCH

Anuj Gupta (24403), wef 29 Sep 2009

(With Notional Seniority wef 22 Nov 2008)

F(P) BRANCH

Sarang Vashisht (24321), wef 15 Feb 2010

APS Hooda (24217), Rosha (24241), M Pandey (24231), N Singh (24224), V Sirohi (24225), N Sharma (24209), E Raghuraj (24232), Y Apte (24235), AP Deshpande (24218), VS Desai (24213), AR Waghmare (24175), Kunal Girmé (24205), P Pandey (24196), M Prakash (24188), R Sangwan (24189), V Rehani (24183), PR Sen (24186), M Faisal (24180), J Shetty (24177), M Shylu (24221), A Bakshi (24222), P Batra (24206), G Adityakiran (24207), D Sethia (24170), AN Karulkar (24166), Sanjay Pal (24167), NS Tirkey (24192), VG Krishna (24233), MVLN Rao (24187), R Bhanjois (24227), V Raghavan (24243), AK Ahlawat (24210), RS Bhandari (24198), S Pradhan (24236), VK Singh (24223), S Kumar (24199), A Chaturvedi (24202), AD Bhardwaj (24226), A Prakash (24245), A Saxena (24237), Bhupender Singh Sehrawat (24203), SG More (24176), R Gakhar (24234), V Shukla (24228), S Sharma (24190), S Kapoor (24193), SK Gore (24179), M Thakurdesai (24200), V Gupta (24169), H Yadav (24171), G Singh (24230), P Singh (24201), SK Singh (24191), Ravi Abraham (24219), GS Sohal (24181), S Kumar (24195), Govind Bhikaji Patole (24211), A Dharmi (24172)—wef 21 Dec 2009

ADM BRANCH

HS Bagga (24242), PA Groegory (24240), AV Pethia (24197)—wef 21 Dec 2009

LGS BRANCH

Yadav AD (24178), wef 21 Dec 2009

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

AE(M) BRANCH

GV Hegde (27813), wef 19 Dec 2009

AE(L) BRANCH

CL Sharma (27815), SK Singh (27816), HK Sharma (27814)—wef 19 Dec 2009

RN Gupta (27817), wef 03 Jan 2010

D Chaturvedi (27818), wef 18 Jan 2010

ADM BRANCH

HO Bhardwaj (27568), wef 21 Jul 2009

S Saxena (27517), SK Nigam (27519), SK Ojha (27503), Pradeep Kumar S Pillai (27504), A Menon (27520), GJ Singh (27521), R Arun Kumar (27522), K Thandapani (27501), M Gopinath (27502), A Dahiya (27527), MDRCS Menon (27528), R Sharma (27505), PV Ramana Rao (27506), R Sachin (27507), MP Dhand (27508), A Jaiswal (27518), A Shah (27516), Ajay Kumar (27515), P Pathak (27514), A Majumdar (27513), AK Tiwari (27526), Hari Om (27525), VV Singh (27524), MT Nair (27523), NK Pal (27512), B Mohanta (27511), M Surendra (27510), CP Gupte (27509)—wef 21 Jun 2009

ACCTS BRANCH

S Saxena (27538), M Sood (27530), VD Ingle (27535), Sandeep (27534), G Padma Kumar (27531), VS Negi (27536), S Ganguly (27537), SU Nair (27529), V Sarpal (27532), V Nair (27533)—wef 21 Jun 2009

EDN BRANCH

N Pokhriyal (27541), Manoj Kumar Yadav (27540), PS Gujral (27539)—wef 21 Jun 2009

MET BRANCH

AN Tiwari (27542), wef 21 Jun 2009

ADM BRANCH

A Yadav (27744), R Sangwan (27743), P Panda (27726), AK Saraswat (27739), VDV Baliga (27740), S Nayak (27741), V Narayan (27734), SC Singh (27735), D Panda (27736), S Kumar (27737), SA Animesh (27733), AP Reddy (27738), A Awasthi (27730), V Bahukhandi (27731), DK Pebbattira (27746), SS Nain (27747), A Sharma (27748), MS Kabawat (27732), JS Subi (27729), A Dua (27727), S Manmadhan (27750), VV Marwadkar (27749), P Paul (27742), R Sharma (27745)—wef 20 Dec 2009

LGS BRANCH

SK Das (27761), VS Deshpande (27751), P Upadhyay (27753), PK Jha (27754), R Kurian (27752), N Uniyal (27758), JP Pulikeshi (27764), S Mastan (27759), RNM Tripathi (27760), D Sharma (27755), PK Ray (27756), GS Paul (27757), Sarath Jose (27763)—wef 20 Dec 2009

ACCTS BRANCH

Shaji SG Nair (27767), M Sahoo (27766), K Sandeep Rao (27771), A Shivhare (27770), Swadeep Sharma (27765), Abhinav Selot (27768), V Gupta (27769)—wef 20 Dec 2009

ADM BRANCH

MK Sinha (27820), MK Mishra (27819)—wef 20 Dec 2009

LGS BRANCH

NK Singh (27821), wef 20 Dec 2009

EDN BRANCH

B Kuttappan (27822), UK Pramanik (27823)—wef 20 Dec 2009

SHORT SERVICE COMMISSION

AE(M) BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

G Tejaswini (27624), P Pandey (27623)—wef 07 Jul 2009

AE(L) BRANCH

MB Castelino (27625), Ms S Bittu (27627),
Ms Poonam (27626)—07 Jul 2009

Alka Pandey (27628), wef 16 Oct 2009

N VIJAYKUMAR
Wg Comm
Jt Dir
Personnel Offrs-3(D)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 761, dated 21 Dec 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

The undermentioned Scientists 'B' to be temporary Scientist (S) 'C' in the Defence Research & Development Service with Effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay):—

Name Estt/Lab and Date

James, CVRDE, Chennai, 01 Jul 2010

Nandagopal Ramadoss, CVRDE, Chennai, 01 Jul 2010

Parthasarathy, CVRDE, Chennai, 01 Jul 2010

P Vasundhara, CVRDE, Chennai, 01 Jul 2010

Virendra Kumar Jaiswal, DARE, Bangalore, 01 Jul 2010

Saurabh Shukla, DARE, Bangalore, 01 Jul 2010

Keshari Kumar, DARE, Bangalore, 01 Jul 2010

Surendra Kumar, DEBEL, Bangalore, 01 Jul 2010

S Nagarajan, DEBEL, Bangalore, 01 Jul 2010

Bala Krishna Konduru, DFRL, Mysore, 01 Jul 2010

Shylajar, DFRL, Mysore, 01 Jul 2010

Atendra Singh Chauhan, DMSRDE, Kanpur, 01 Jul 2010

Rudresh Kumar, DMSRDE, Kanpur, 01 Jul 2010

Sandeep Kumar, DMSRDE, Kanpur, 01 Jul 2010

Kamlesh Kumar, DMSRDE, Kanpur, 01 Jul 2010

Amit Jha, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Rajesh Kumar Meena, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Mukesh Singh, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Deepak Kumar Dubey, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Devender Sharma, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Deepti Joshi, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Nishi Sinha, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Manish Tandon, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Kamal Kumar Gulati, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Anjesh Kumar, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Ashish Pandey, LASTEC, Delhi, 01 Jul 2010

Vipparia Chandrakanth, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2010

Manisha Vamney, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2010

Shantanu Garg, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2010

Ami Goel, LRDE, Bangalore, 01 Jul 2010

Rajneesh Gupta, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Sumit Kathuria, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Sandeep Kumar Katoch, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Vikram Singh, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Dinesh Kumar, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Pushpanjali Mitra Gautam, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Manoj Kumar, TBRL, Chandigarh, 01 Jul 2010

Arvind, SAG, Delhi, 01 Jul 2010

Arvind Kumar, SAG, Delhi, 01 Jul 2010

Sonika, SAG, Delhi, 01 Jul 2010

Gajraj Kuldeep, SAG, Delhi, 01 Jul 2010

Gireesh Pandey, SAG, Delhi, 01 Jul 2010

Sartaj Ulhasan, SAG, Delhi, 01 Jul 2010

Manish Kumar Sinha, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Aklesh Kumar Meena, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Anand Singh, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Sovinder Singh Rana, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Rakesh Kumar Pandey, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Pravat Kumar Das, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Monika Chaudhary, SSPL, Delhi, 01 Jul 2010

Anju Mala, RAC, Delhi, 01 Jul 2010

NARSINGH SAHU
Jt Dir (Pers)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 762, dated 21 December 2010—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each:—

Name (Shri/Smt/Miss), Lab/Estt/ Existing Grade, Promotion to, Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.) and Date of Charge Assumption in the promoted grade

R. Sai Geetha Giridharan, RAC, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

Shri AS Monoharan, CAIR, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

Shri L Umesh, CAIR, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2010

BV Ganesh Murthy, DARE, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

B Venkatesh Joshi, DARE, TO-B, TO-C, PBP-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

Devaraja, DARE, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2010

Shri MK Pant, DIBER, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2010

Shri RP Joshi, DIBER, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

Shri AS Bhoj, DIBER, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2010

Pauline Thomas, DIPAS, TO-C, TO-D, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 7,600/-, 01 Sep 2010

AK Tyagi, DIPAS, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

Karan Pal, DIPAS, TO-B, TO-C, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 6,600/-, 01 Sep 2010

Anjana Pathak, DIPAS, TO-A, TO-B, PB-3 (15,600—39,100/-) GP + 5,400/-, 01 Sep 2010

Neelam Kanta Malik, DIPAS, STA-C, TO-A, PB-2 (9,300—34,800/-) GP + 4,800/-, 01 Sep 2010

B B SHARMA
Jt Dir (Pers-TC)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 763, dated 22 December 2010—The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I. Section-4 of the Gazette of India on 19 Jun 2010 under the heading Regular Army/Permanent Commission & Sub Heading Maj Gen to be Lt Gen (& equivalent):—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

For

Naresh Kumar — 27 May 2009 with notional
(MR-03044H) Seniority without effect on pay
& pension from 02 Jan 2009

READ

Naresh Kumar — 27 May 2009 with notional
(MR-03044H) Seniority without effect on pay
& pension from 01 Jan 2009

YASH PANDEY

Brig

Dy. DGAFMS (HR)